



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 14—जून 20, 2008 (ज्येष्ठ 24, 1930)
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14—JUNE 20, 2008 (JYAISTHA 24, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक

सं. 2/03/08-प्रशासन/12032--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा
सुश्री सरस्वती सिवरामाकृष्णन्, आईआरएसएमई (91) को आयोग में
विभागीय जांच आयुक्त (निदेशक स्तर) के पद पर वेतनमान
रु. 14,300-400-18,300/- में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर
दिनांक 26.05.2008 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि तक अथवा
अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

सुरजीत सिंह

विशेष कार्य अधिकारी (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 मई 2008

सं. ओ.दो.-3769/08-सी.आर.सी. (एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी,
डॉ. वसन्त मुरारी कुम्बारे (इरला-7494), को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

बल में चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट) के पद पर वेतनमान
रु. 8,000-275-13,500/- में अस्थायी रूप से दिनांक 28.03.2008
(पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 29 बटा,
के.रि.पु.बल, श्रीनगर 56 एपीओ में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 29 मई 2008

सं. ओ.दो.-5179/08-कार्मिक-1--श्री राजीव कुमार सिंह सेंगर,
उप कमाण्डेन्ट (इरला-5179) 07 बटालियन, केरिपुबल का सरकारी
सेवा से त्यागपत्र नोटिस दिनांक 15.03.2008 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा
स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से
कार्यभार दिनांक 16.05.2008 (अपराह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका
नाम इस बल की नफरी से दिनांक 16.05.2008 (अपराह्न) से निकाला
जाता है।

रणजीत सिंह

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 मई 2008

सं. ई-28017/1/नोटि/2008/कार्मिक-2/990--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री एल. सी. हसीजा सरकारी सेवा से दिनांक 30.04.2008 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा उन्होंने के.ओ.सु.बल पांचवी आरक्षित वाहिणी गाजियाबाद से उप काण्डेंट के पद का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 28 मई 2008

सं. ई-16015/(2)/2/2007/कार्मिक-1/162--राष्ट्रपति, श्री पी. के. पाण्डा, सहायक कमांडेन्ट/कार्य को सैद्धांतिक पदोन्नति होने पर दिनांक 29.09.2006 (पूर्वाह) से केओसुब में नियमित आधार पर उप कमांडेन्ट/कार्य के पद पर नियुक्त करते हैं। उन्होंने नियमित पदोन्नति होने पर केओसुबल प्रशिक्षण केन्द्र मुण्डाली में दिनांक 23.04.2008 (पूर्वाह) को उप कमांडेन्ट/कार्य के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

2. उप कमांडेन्ट/कार्य के रैंक में सैद्धांतिक पदोन्नति की तारीख से उनकी केवल वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी और वह अपनी सैद्धांतिक पदोन्नति की तारीख से उप कमांडेन्ट/कार्य के पद के वेतन और भत्तों की बकाया राशि के हकदार नहीं होंगे। वह वेतन और भत्तों के हकदार उप कमांडेन्ट/कार्य के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से होंगे।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16015/(2)/2/2007/कार्मिक-1/163--राष्ट्रपति, केओसुब के निम्नलिखित अपर उप महानिरीक्षक को 16,400-450-20,000/- रुपए के वेतनमान में उप महानिरीक्षक के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	उप महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	वाई. एन. शर्मा	सीसीएल करगली	22.05.2008(अपराह)
2.	एस. नायक	बीपीटी विशाखापटनम	22.05.2008(अपराह)
3.	जी.एल. खिंची	एसएसजी दिल्ली	22.05.2008(अपराह)
4.	एस.एन. कौल	बल मुख्यालय, नई दिल्ली	22.05.2008(अपराह)

1	2	3	4
5.	डी. एस. मुरदेश्वर	उ.पू.क्षे. मुख्यालय, कोलकाता	23.05.2008(पूर्वाह)
6.	अनिल कुमार	बल मुख्यालय, नई दिल्ली	22.05.2008(अपराह)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16015/(2)/2/2007/कार्मिक-1/164--राष्ट्रपति, केओसुब के निम्नलिखित सहायक कमांडेन्टों को 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में उप कमांडेन्ट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	उप कमांडेन्ट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
	सर्वश्री		
1.	राजीव कुमार शर्मा	सीपीएम पंचग्राम	17.03.2008
2.	बी. बी. सिंह	डीएचईपी दुलहस्ती	14.04.2008(अपराह)
3.	ए. के. गुप्ता	बीसीसीएल/सीसीडब्ल्यूओ धनबाद	07.05.2008

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

वित्त मंत्रालय

बैंक नोट मुद्रणालय

(भारत प्रतिभूति तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

देवास, दिनांक 22 मई 2005

सं. बीएनपी/सी/44/98-I--श्री ए. पी. उदावत, उप तकनीकी अधिकारी (स्याही कारखाना) को तकनीकी अधिकारी (स्याही कारखाना) के पद पर वेतनमान रुपये 6,500-200-10,500/- (समूह-ख राजपत्रित) में दिनांक 01.05.2008 से अन्य आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

शशिभूषण बेहेरा
उप महाप्रबंधक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 1 मई 2008

सं. प्रशा.-I/1255-IV/2008-09/165--महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल के दिनांक 30.04.2008 के आदेश के तहत

श्री अजीत कुमार कर, अनुभाग अधिकारी को वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/- में दिनांक 01.05.2008 (पूर्वाह) अथवा सहायक लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक जो भी बाद में हो, के प्रभाव से सहायक लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है।

पदोन्नति पर उनका वेतन एफ.आर.22 I (ए)(i) के अंतर्गत निर्धारित होगा जोकि पदोन्नति के दिनांक से एक महीने के अन्दर अपना विकल्प दे सकते हैं।

जे. आर विश्वास
उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I/1255-IV/2008-2009/166--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल के दिनांक 30.04.2008 के सदय आदेशानुसार निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी, जो कि अभी प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), कोलकाता के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, को रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान पर उनके कनिष्ठ सहायक लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से सहायक लेखा अधिकारी को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गयी है :--

प्रोफार्मा पदोन्नति दिए गए व्यक्ति का नाम उनके कनिष्ठ का नाम

श्री प्रवीर कुमार दास-II श्री अजित कुमार कर

'ठीक नीचला नियम' के अधीन प्रोफार्मा पदोन्नति देने की सभी शर्तें इस मामले में पूरी की गई हैं एवं यह घोषित किया जाता है कि श्री दास के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अधिकृत पद साधारण सेवा रेखा के बाहर है।

पदोन्नति पर उनका वेतन एफ.आर.22 I (ए)(i) के अंतर्गत निर्धारित होगा जिसके लिए वे इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अन्दर अपना विकल्प प्रयोग कर सकते हैं।

जे. आर विश्वास
उप महालेखाकार (प्रशासन)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171 004, दिनांक 30 मई 2008

सं. 5/1/2008-सी.पी.आई.--अप्रैल, 2008 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 1 अंक बढ़कर 138 (एक सौ अड़तीस) अंकों के स्तर पर रहा।

आर. के. गुप्ता
संयुक्त निदेशक

खान मंत्रालय
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 26 मई 2008

सं. 1422ए/ए-32013/4-ड्रीलर(ग्रेड-II)/2006-19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भा.भू.स., श्री टी. जे. एस.

एस. कुमार वरिष्ठ तकनीकी सहायक (वेधन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की नियुक्ति वेधक श्रेणी-II के पद पर इसी विभाग में रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर, नियमित आधार पर, आगामी आदेशों तक 04.10.2007 (पूर्वाह) से प्रभावित पदोन्नति पर अनुमोदित करते हैं :--

कार्तिकेय वर्मा
प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I
कृते : महानिदेशक

कोलकाता-16, दिनांक 28 मई 2008

शुद्धिपत्र

सं. 1655एसपी/ए-32013/एस.ओ./2007-19ए--इस कार्यालय के अधिसूचना सं. 3011 एस.पी. से 3022 एस.पी. एवं 2489बी से 2506बी/ए-32013/एस.ओ./2007-19ए, दिनांक 12.09.07 तथा एम संख्यक 3075 एस.पी., दिनांक 21.11.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए उल्लेख है कि क्रम सं. 06 पर श्री देवराज रैना से संबंधित भण्डार अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर कार्यग्रहण की तिथि 18.6.2007 (पूर्वाह) के बदले 23.05.2007 (पूर्वाह) पढ़ा जाए।

अन्य सभी अनुबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

डी. टी. सिम्लेह
निदेशक (का. एवं प्र.)
कृते महानिदेशक

कोलकाता-16, दिनांक 29 मई 2008

शुद्धिपत्र

सं. 1719एसपी/ए-32013/4-उपमहानिदे. (वेधन)/90-19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित निदेशक (वेधन) की नियुक्ति उपमहानिदेशक (वेधन) के रूप में इसी विभाग में रुपए 18,400-500-22,400/- के वेतन में नियमानुसार वेतन पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक पदोन्नति पर अनुमोदित करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	प्रभावित तिथि
01.	श्री ए. वासुदेवन	01.01.2008 (अपराह)
02.	श्री सी पी. दुसाद	01.01.2008 (अपराह)

बी. एम. गालव
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

कोलकाता-16, दिनांक 30 मई 2008

सं. 941बी/ए-19011/(1-एस.बी.वी.के.)/07/19ए--राष्ट्रपति जी, श्री एस. बी. विजय कुमार को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) (समूह 'क' राजपत्रित)

के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में 28.01.2008 के पूर्वाह्न से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त नियुक्ति अनन्तिम है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति की स्थिति के सत्यापन के अध्याधीन है।

बी. एम. गालव
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

कोलकाता-16, दिनांक 30 मई 2008

सं. 1724एसपी/डी.-11011/1/झारखंड/2007-21--महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 26.09.2007 से प्रभावित भारतीय भूवैज्ञानिकसर्वेक्षण, पूर्वी क्षेत्र, परिचालन बिहार एवं झारखंड के तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ए/433, रोड़ नं. 5, अशोक नगर, रांची में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक नया परिचालन कार्यालय खोलने की घोषणा करते हैं। खान मंत्रालय, भारत सरकार उसके दिनांक 16.06.2007 के पत्र सं. 27/20/2002-एम.II द्वारा पहले से ही इसको अनुमोदित कर चुका है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण झारखंड राज्य, प्राकृतिक रूप से खनिज संपदा से समृद्ध एक क्षेत्र में काफी लंबे समय से भूवैज्ञानिक मानचित्रण एवं खनिज अन्वेषण में संलग्न रहा है तथा इसने पहले से ही कुछेक महत्वपूर्ण आर्थिक खनिजवाही अंचलों, विशेषतः स्वर्ण का कूटवाचन किया है। अभी हाल ही में राज्य में भूरसायनिक मानचित्रण शुरू किया है, जिससे क्षेत्र में गुप्त खनिज पूर्वक्षेत्र स्थल के अनुसंधान में सहायता मिलेगी।

अब तक परिचालन बिहार एवं झारखंड, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पूर्वी क्षेत्र, पटना से ही सभी भूवैज्ञानिक एवं खनिज अन्वेषणों का परिचालन किया जा रहा था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्यालय रांची में खोलने से राज्य में नए खनिज पूर्वक्षेत्र-स्थल की खोज तथा अन्य भूवैज्ञानिक अध्ययनों में बृहत्तर प्रेरक शक्ति को काम में लगाया जा सकता है।

आशीष कुमार राय
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 26 मई 2008

संदर्भ : पीडी/11(1)/2008-आर-III/2008/4365--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कुमारी ललिता एस. दास, सहायक लेखाकार को दिनांक 10.03.2008 (पूर्वाह्न) से 16.05.2008 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 19 मई 2008

सं. 20/13(1)/2008-सीसीएस/06--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री विरेन्द्र कुमार दिनकरलाल तलाटी, सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500--10,500/-), भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा) को दिनांक 18.02.2008 (पूर्वाह्न) से दिनांक 20.03.2008 (अपराह्न) तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी संयंत्र में प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 14 मई 2008

सरकार द्वारा बेरिल की खरीद

सं. 12/2(3)/2007-आईएंडएम(एएमडी)/27--बेरिल के मूल्यों के पुनर्निर्धारण का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के समक्ष रहा है। खनिज की वर्तमान उत्पादन लागत, घरेलू उपभोग और रणनीतिक उपयोगों को ध्यान में रखते हुए और इस विषय पर दिनांक 19.8.1968 की अधिसूचना सं. 6/7/67-एम, दिनांक 19.4.1969 की अधिसूचना सं. 6/7/67-एम और दिनांक 06.12.1993 की सं. 9/1/92. एएमडी(आरएंडडी)/1820 का अधिक्रम करते हुए यह निर्णय किया गया है कि बेरिल अयस्क (ढेला) और बेरिल चूरी के क्रय मूल्य को निम्नवत संशोधित कर दिया जाए :

- (क) बेरिल अयस्क ढेला (आकार +30जाली) जिसमें BeO की मात्रा 10% या इससे अधिक हो, उसका मूल्य प्रति इकाई BeO प्रति मीट्रिक टन रु. 1,000/- होगा।
- (ख) बेरिल चूरी (आकार +30जाली) जिसमें BeO की मात्रा 10% या इससे अधिक हो, उसकी दर ढेला बेरिल की ऊपर दी गई दर का 50% होगी।
- (ग) BeO की 10% से कम मात्रा वाले बेरिल प्रेषण अगली अधिसूचना तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। खान स्वामियों को सलाह दी जाती है कि वे अन्य किसी भी तरह की अशुद्धताओं को हटाकर बेरिल अयस्क का उन्नयन करें और तब केवल उन प्रेषणों के विक्रय के लिए प्रस्ताव दें जिनमें BeO की मात्रा 10% या इससे अधिक हो।
- (घ) निकटतम रेल हेड से विभागीय गोदाम तक के रेल भाड़े का भुगतान पहले की ही तरह सरकार द्वारा किया जाएगा।

ये मूल्य इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख या उसके पश्चात् और आगामी आदेशों तक भेजे गये बेरिल प्रेषणों पर लागू होंगे।

सैंप्लिंग/आपूर्ति/परिवहन और प्रेषण के बारे में और अधिक ब्यौरा निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, 1-10-153-156, वेगमपेट, हैदराबाद 500016, आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त किया जा सकता है।

ए. के. वी. नायर
अवर सचिव

सरकार द्वारा नायोबियम और टैंगलम के खनिजों, अयस्कों तथा स्लैग/अवशिष्ट की खरीद

सं. 12/2(3)/2007-आईएंडएम(एमडी)/28--विभिन्न कारकों, जैसे उपयोग, उत्पादन, दिशा, रणनीतिक महत्व, उचित मूल्यों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए नायोबियम और टैंगलम के खनिजों, अयस्कों और स्लैग/अवशिष्ट के मूल्यों का पुनर्निर्धारण भारत सरकार के विचाराधीन था। इस विषय पर दिनांक 6.12.1993 की अधिसूचना सं. 9/1/92-एमडी(आरएंडडी) का अधिक्रमण करते हुए इस प्रकार की सामग्री के क्रय मूल्य को निम्नवत संशोधित करने का निर्णय किया गया है :

नायोबियम अयस्क :

(i) 30-49.99% (Nb+Ta)₂O₅ : वितत (कंटेंड) पेंटाक्साइड रु. 120/- प्रति किलो

(ii) 50% और इससे अधिक (Nb+Ta)₂O₅

(क) 10% से कम Ta₂O₅ : वितत (कंटेंड) पेंटाक्साइड रु. 150/- प्रति किलो

(ख) 10% से अधिक Ta₂O₅ : वितत (कंटेंड) पेंटाक्साइड रु. 210/- प्रति किलो

टैंगलम अयस्क :

(i) 30-49.99% Ta₂O₅ : वितत (कंटेंड) पेंटाक्साइड रु. 360/- प्रति किलो

(ii) 50% और इससे अधिक Ta₂O₅ : वितत (कंटेंड) पेंटाक्साइड रु. 500/- प्रति किलो

2. आगे यह भी अधिसूचित किया जाता है कि टिन संयंत्रों से निकलने वाले जिस अवशिष्ट में 50% से अधिक (Nb+Ta)₂O₅ पाया जाएगा और जो राज्य खनन कारपोरेशनों तथा निजी पार्टियों द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा उसकी खरीद परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एमडी) द्वारा ऊपर दिए मूल्यों पर की जाएगी।

3. उपरोक्त विवरण के अनुसार नायोबियम और टैंगलम के खनिजों, अयस्कों स्लैग अवशिष्टों के ये मूल्य इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से या उसके पश्चात् और आगामी आदेशों तक भेजे जाने वाले प्रेषणों पर लागू होंगे।

सैंप्लिंग/विक्रय/परिवहन और प्रेषण के बारे में और अधिक ब्यौरा निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, 1-10-153-156, बेगमपेट, हैदराबाद 500016, आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त किया जा सकता है।

ए. के. वी. नायर
अवर सचिव

हैदराबाद-500062, 29 मई 2008

सं. : नाईस/प्रशा./पें/का.कू.2228/2042--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री ए. नारायण, वैज्ञानिक अधिकारी/'जी' (वेतनमान

रु. 16,400-450-20,000/-) ने दिनांक 31.01.2008 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. : नाईस/प्रशा./पें/का.कू.0846/2043--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री बी. आर. आचार्य, वैज्ञानिक अधिकारी/'ई' (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 31.01.2008 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. : नाईस/प्रशा./पें/का.कू.3851/2044--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री बी. लक्ष्मीनारायण, वैज्ञानिक अधिकारी/'एच' (वेतनमान रु. 18,400-500-22,400/-) ने दिनांक 31.01.2008 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति
सहायक कार्मिक अधिकारी

कम्पनी मामले मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गडोडिमा इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 26 जून 2007

सं. 560 (3) रेगुलर/यू/74899डीएल1980पीएलसी 010227/2480--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गडोडिमा इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ए. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नेशनल फाईनेन्सिंग कं. प्रा. लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू/67120आरजे1948पीटीसी000633/
1--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण

में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नेशनल फाईनेन्सिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सोभाग एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मुन्दरा मेटल वर्क्स लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू29299आरजे1949पीटीसी000771/
2--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मुन्दरा मेटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री क्लोथ कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू74994आरजे1951पीटीसी000890/
5--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री क्लोथ कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजस्थान रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू60231आरजे1949पीटीसी000786/
3--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स भारत एक्सट्रूजन (कोटा) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू31300आरजे1960पीटीसी001091/
7--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भारत एक्सट्रूजन (कोटा) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सोभाग एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू51101आरजे1950पीटीसी000826/
4--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स तीर्थ सण्डराम एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/8--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स तीर्थ सण्डराम एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजस्थान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू 29299आरजे1961पीटीसी/001136/9--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जयपुर इंजीनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू31900आरजे1964पीएलसी001180/10--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जयपुर इंजीनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पान पालिया ऑटो पार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू51109आरजे1965पीटीसी001195/11--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पान पालिया ऑटो पार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कालसी टायर्स जयपुर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू25111आरजे1965पीटीसी001202/12--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कालसी टायर्स

जयपुर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजस्थान मेटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू27101आरजे1965पीटीसी001203/13--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान मेटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स खूटाटिया फाईनेन्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू67120आरजे1966पीटीसी001213/14--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स खूटाटिया फाईनेन्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जोधपुर फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू67120आरजे1968पीटीसी001252/15--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जोधपुर फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बोम्बे ओकारा केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू60231आरजे1969पीटीसी001262/
17--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बोम्बे ओकारा
केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और
उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आर. आर. लोइया सन्स बिडी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू16002आरजे1970पीटीसी001313/
18--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर. आर. लोइया
सन्स बिडी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है
और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जे. टी. प्रेसिसिन कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू27310आरजे1970पीटीसी001315/
19--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जे. टी. प्रेसिसिन
कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और
उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स दी स्पीडर टायर एण्ड ट्यूब मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू25111आरजे1970पीटीसी001316/
20--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के

अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दी स्पीडर टायर
एण्ड ट्यूब मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर
से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स गौतम टायर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू25111आरजे1970पीटीसी001325/
21--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गौतम टायर्स प्राईवेट
लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी
विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स राजस्थान सिविल इंजीनियर कन्सलटेन्ट मैनुफैक्चर्स एण्ड बिल्डर्स
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू67120आरजे1970पीटीसी01332/
22--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान सिविल
इंजीनियर कन्सलटेन्ट मैनुफैक्चर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम
आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्री गंगानगर सेल्फ हैल्प फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू24232आरजे1970पीटीसी001335/
23--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री गंगानगर सेल्फ
हैल्प फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फिल्टर एड्स एण्ड केमिकल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/24--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फिल्टर एड्स एण्ड केमिकल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अतुल सेविंग्स एण्ड जनरल फार्निश प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/25--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अतुल सेविंग्स एण्ड जनरल फार्निश प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जय मारवाड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/26--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जय मारवाड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रि-कोक एण्ड कोल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू23101आरजे1972पीटीसी001399/
28--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रि-कोक एण्ड

कोल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गोपाल मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू29999आरजे1972पीटीसी001400/
29--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोपाल मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इलेक्ट्रो एसिटिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू31200आरजे1972पीटीसी001411/
31--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इलेक्ट्रो एसिटिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जयपुर स्टील फर्नीचर मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू28111आरजे1972पीटीसी001414/
32--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जयपुर स्टील फर्नीचर मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स भारत एग्रोवेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू51211आरजे1972पीटीसी001418/
33--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भारत एग्रोवेट
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुखाडा सेविंग एण्ड जनरल फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू67120आरजे1972पीटीसी001421/
34--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुखाडा सेविंग एण्ड
जनरल फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कुशुम लैम्पस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू31501आरजे1972पीटीसी001422/
35--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कुशुम लैम्पस्
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जयपुर स्टील कास्टिंग्स एण्ड फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू27107आरजे1972पीटीसी001429/
36--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के

अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जयपुर स्टील
कास्टिंग्स एण्ड फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजस्थान ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू26931आरजे1972पीटीसी001440/
38--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान ब्रिक्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जयपुर ज्योटेल्स एण्ड कन्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू26103आरजे1972पीटीसी001449/
39--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जयपुर ज्योटेल्स एण्ड
कन्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और
उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स दौलत ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू51101आरजे1972पीटीसी001456/
40--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दौलत ट्रेडिंग
कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और
उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साकेत केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू24117आरजे1973पीटीसी001471/
41--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साकेत केमिकल्स
इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है
और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इनकॉन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू36998आरजे1973पीएलसी001474/
42--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इनकॉन इण्डिया
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स स्प्रिंग लिवेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू34300आरजे1973पीटीसी001475/
43--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्प्रिंग लिवेस
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजस्थान ब्लेड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू28939आरजे1973पीएलसी001482/
44--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के

अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान ब्लेड्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नीरज फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू67120आरजे1973पीटीसी001486/
45--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नीरज फाइनेन्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शिखा ट्यूरिज्म एण्ड कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू63040आरजे1973पीटीसी001488/
44--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिखा ट्यूरिज्म एण्ड
कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है
और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री गंगानगर खुदरा भण्डार प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू521900आरजे1973पीटीसी001513/
47--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री गंगानगर खुदरा
भण्डार प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और
उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राष्ट्रीय प्रश्न आवाम खनिज उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/48--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राष्ट्रीय प्रश्न आवाम खनिज उद्योग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स दादा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/49--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दादा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बिल्ड माको प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/50--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बिल्ड माको प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गोपाल इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/51--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि मैसर्स गोपाल इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अग्रवाटिया केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/52--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अग्रवाटिया केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स स्वास्तिक ऑयल एक्सट्रक्शन एण्ड केमिकल्स
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/53--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्वास्तिक ऑयल एक्सट्रक्शन एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हिमाचल मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/54--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हिमाचल मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हेडा सेविंग्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/62--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हेडा सेविंग्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

है कि मैसर्स अनु एण्ड प्रिंस स्टील मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कमल सेविंग्स एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/63--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कमल सेविंग्स एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स निता उद्योग वास्तु भण्डार प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/66--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निता उद्योग वास्तु भण्डार प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजरस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजधानी सर्विंग्स एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/64--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजधानी सेविंग्स एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कुदाल सेविंग्स एण्ड जनरल फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपूर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/67--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कुदाल सेविंग्स एण्ड जनरल फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अन एण्ड प्रिंस स्टील मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/65--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बालदआ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/68--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बालदू आ इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सोगानी उद्योग खाण्डसारी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/76--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सोगानी उद्योग खाण्डसारी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

है कि मैसर्स स्वास्तिक स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नन्द अलोक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/77--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नन्द अलोक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एस. डी. फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/80--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. डी. फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शुभ लक्ष्मी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/78--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शुभ लक्ष्मी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स करनी सेविंग स्कीम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/81--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स करनी सेविंग स्कीम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स स्वास्तिक स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302006, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/79--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मोसे एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/82--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोसे एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पूनम फाईनेन्स लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/92--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पूनम फाईनेन्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जाती है कि मैसर्स चेतक ऑटोस्प्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स इलेक्ट्रीकल कन्ट्रेक्टर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन राज. लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/93--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इलेक्ट्रीकल कन्ट्रेक्टर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन राज. लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स शेखावती टेक्सटाईल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/96--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शेखावती टेक्सटाईल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बाली केबल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/97--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बाली केबल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मयूर सीमेन्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/94--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मयूर सीमेन्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बम्बई जयपुर ट्रांसपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/99--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बम्बई जयपुर ट्रांसपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स चेतक ऑटोस्प्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/95--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स परिहार उत्पादन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/100--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स परिहार उत्पादन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जाती है कि मैसर्स वर्क्स ऑफ आर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिम्पाडाईने इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/104--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिम्पाडाईने इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजस्थान रिफाइनरिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/105--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान रिफाइनरिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आई लाइट ऑप्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/106--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आई लाइट ऑप्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अरोड़ा ट्रेफिक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/101--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरोड़ा ट्रेफिक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ब्राइट इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/102--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्राइट इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वर्क्स ऑफ आर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/103--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जय श्री मार्बल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/107--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जय श्री मार्बल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इन्टरनेशनल कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/108--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्टरनेशनल कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पलावत प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/109--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पलावत प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चित्रप्रदर्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/110--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स चित्रप्रदर्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वीनस मार्बल्स इन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/111--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वीनस मार्बल्स इन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स संजय इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/112--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स संजय इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पंचशील एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/113--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पंचशील एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कुटुम्ब जनरल ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/114--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कुटुम्ब जनरल ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री एसबेस्टॉस सीमेन्ट राजस्थान लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/115--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री एसबेस्टॉस सीमेन्ट राजस्थान लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अग्रवाल सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/116--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अग्रवाल सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री अन्नपूर्णा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/117--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अन्नपूर्णा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स त्रिपुरा फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/118--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स त्रिपुरा फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओरिएण्ट जेम इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/119--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओरिएण्ट जेम इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एक्सलेन्ट रबड़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/120--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्सलेन्ट रबड़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स उर्वशी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/136--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उर्वशी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जाती है कि मैसर्स कोन्टीनेन्टल फोरजिनास प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आर. ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/137--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर. ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स भगवती इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/140--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भगवती इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स भीलवाड़ा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/138--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भीलवाड़ा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स उदयपुर सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/141--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उदयपुर सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जन कल्याण फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/142--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जन कल्याण फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कोन्टीनेन्टल फोरजिनास प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/139--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अलवर थ्रेमोपेक इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/150--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अलवर थ्रेमोपेक इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जाती है कि मैसर्स स्वास्तिका इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हेम कून्द प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/151--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हेम कून्द प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स प्रमाइर सिलिन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/155--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रमाइर सिलिन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अर्च इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/152--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अर्च इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साथी रामका स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/156--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साथी रामका स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स स्वास्तिका इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/154--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स के. एफ. डायमण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/157--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स के. एफ. डायमण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स तराई सीड सिन्धिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/166--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स तराई सीड सिन्धिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जाती है कि मैसर्स फेबटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शेखावटी ट्रान्सपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/167--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शेखावटी ट्रान्सपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेरातवाल इन्सूलेशनस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/170--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेरातवाल इन्सूलेशनस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्रृंगार ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/168--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रृंगार ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मोदी स्प्रेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/171--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोदी स्प्रेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फेबटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/169--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुमन सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/172--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुमन सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डिटेक्टर्स प्रोसेजर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/180--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डिटेक्टर्स प्रोसेजर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जाती है कि मैसर्स बलवंत फूड इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स होटल विजय प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/184--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स होटल विजय प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वेस्टर्न मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/182--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेस्टर्न मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रश्मि सोप्स केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/185--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रश्मि सोप्स केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अनिल गिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्टरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/182--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनिल गिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्टरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शर्मा मेटल्स मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/186--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शर्मा मेटल्स मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बलवंत फूड इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/183--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फ्रेण्ड्स ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/187--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ्रेण्ड्स ट्रेडिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अलंकार एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/188--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अलंकार एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शेखावती मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/189--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शेखावती मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मदन सन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/190--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स मदन सन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विमल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/191--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विमल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स दीपाली डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/192--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दीपाली डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एम. एम. एलोयेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/193--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. एम. एलोयेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स माधोराम वनस्पति एण्ड सोया प्रोडक्ट्स लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/194--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स माधोराम वनस्पति एण्ड सोया प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जाती है कि मैसर्स के. के. ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राठी मार्बल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/199--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राठी मार्बल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मरूधर रिफाइनरी एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/195--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मरूधर रिफाइनरी एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मोटल अमर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोटल अमर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आर. बी. डेयरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/196--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर. बी. डेयरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजस्थान ट्रेड एण्ड ट्रेवल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/201--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान ट्रेड एण्ड ट्रेवल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स के. के. ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/197--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एनर्जी एण्ड कम्युनिकेशन्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/202--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एनर्जी एण्ड कम्युनिकेशन्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मोनार्क फिल्मस कम्बाइण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/203--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोनार्क फिल्मस कम्बाइण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सेन्ट्रल सब्सक्रिप्शन एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/204--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेन्ट्रल सब्सक्रिप्शन एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एस. आर. एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/205--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स एस. आर. एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान एक्टिविटीज अर्थस
केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/206--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान एक्टिविटीज अर्थस केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स प्रिकेम्ब्रियन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/207--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रिकेम्ब्रियन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री वैष्णोदेवी ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/208--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री वैष्णोदेवी ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स उत्तम भारत सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/209--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उत्तम भारत सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जाती है कि मैसर्स केकड़ी ग्रेनाईट एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रिलाइन्स पॉलीटेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/210--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रिलाइन्स पॉलीटेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इनपार ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/213--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इनपार ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गैलेक्सी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/214--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गैलेक्सी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स क्राइस्टल व्हाइट सीमेंट्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/211--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्राइस्टल व्हाइट सीमेंट्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नाकोडाजी रियल एस्टेट एण्ड
बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/215--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नाकोडाजी रियल एस्टेट एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स केकड़ी ग्रेनाईट एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/212--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजधानी ब्लेड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/238--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजधानी ब्लेड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जाती है कि मैसर्स कुबेर सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कास्लीवाल मिनरल्स प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/239--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कास्लीवाल मिनरल्स प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एम. मिस्क मेटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/242--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. मिस्क मेटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स भीलवाड़ा फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/243--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भीलवाड़ा फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अम्बाजी प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/240--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अम्बाजी प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विश्वकर्मा इलेक्ट्रोड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/244--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विश्वकर्मा इलेक्ट्रोड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कुबेर सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/241--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शर्मा पी. वे इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/245--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शर्मा पी. वे इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जाती है कि मैसर्स शालीमार मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हिमालय सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/246--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हिमालय सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अरावली ऐरो रोप ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/249--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरावली ऐरो रोप ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मार्मो मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/247--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मार्मो मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सी. वी. रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/250--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सी. वी. रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शालीमार मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/248--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स स्टार ऑयल प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/251--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्टार ऑयल प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स के. महाराजा बोटलिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/252--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स के. महाराजा बोटलिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अग्रवाल ग्राइडिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/253--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अग्रवाल ग्राइडिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डेल्टा ऑटो मैन्यूफ. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/254--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डेल्टा ऑटो मैन्यूफ. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गोन्का मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/255--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स गोन्का मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शेखावटी स्टेट डेवलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/256--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शेखावटी स्टेट डेवलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सतदर्थ एग्रो एण्ड पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/257--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सतदर्थ एग्रो एण्ड पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अजमेर कोल्ड रिटरिड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/258--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अजमेर कोल्ड रिटरिड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डेको बिल्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/259--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डेको बिल्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जाती है कि मैसर्स श्री वरीशल्या प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फिक्सवेल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/260--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फिक्सवेल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फेरीलैंड इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/264--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फेरीलैंड इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कलकत्ता फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/261--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कलकत्ता फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिद्धि मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/265--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिद्धि मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री वरीशल्या प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/263--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इनटेक्स एसपटिक पैकिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/266--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इनटेक्स एसपटिक पैकिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पैरामाउन्ट एडवर्टाईजिंग (राजस्थान) प्राईवेट लिमिटेड के विषय
में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/267--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी
जाती है कि मैसर्स पैरामाउन्ट एडवर्टाईजिंग (राजस्थान) प्राईवेट लिमिटेड
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो
गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री गोवरधन संगमरमर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/268--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी
जाती है कि मैसर्स श्री गोवरधन संगमरमर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुविगा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/270--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी
जाती है कि मैसर्स सुविगा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर
से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स के. आर. स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/271--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स के. आर. स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अल्फा इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/272--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी
जाती है कि मैसर्स अल्फा इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गोविन्द सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/273--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी
जाती है कि मैसर्स गोविन्द सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फैंसीनेटिंग स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/274--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी
जाती है कि मैसर्स फैंसीनेटिंग स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुपरेप्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/275--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुपरेप्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रॉक कास्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/276--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रॉक कास्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रियल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/277--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रियल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिदीहेश लैण्ड एण्ड फाईनेंस लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/278--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स सिदीहेश लैण्ड एण्ड फाईनेंस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रामगंजमण्डी माइनिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/279--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रामगंजमण्डी माइनिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ईडन एग्रो मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/280--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ईडन एग्रो मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स क्रिटल विन्डो एण्ड स्ट्रक्चरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/281--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रिटल विन्डो एण्ड स्ट्रक्चरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स लेसमेन्ट पोलीस्टर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/282--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लेसमेन्ट पोलीस्टर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जाती है कि मैसर्स राजस्थान सरेसोल्ल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स भूपाल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू14219आरजे1958पीटीसी/001050/283--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भूपाल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डोमोप्लास्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/286--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डोमोप्लास्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बाहुबली मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/287--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बाहुबली मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अरावली केमिकल लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/284--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरावली केमिकल लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजस्थान लॉज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू55102आरजे1989पीटीसी005004/288--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान लॉज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजस्थान सरेसोल्ल्स लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/285--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एन. एम. फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू70109आरजे1989पीटीसी005131/
289--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एन. एम. फार्म्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आशा सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू26943आरजे1990पीटीसी005382/
290--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आशा सीमेन्ट्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजस्थान प्लास्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू26952आरजे1991पीटीसी006047/
291--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान प्लास्टर्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स लेप्रोस्कोपिक्स सर्जीरिल्स (यूएसएसएल) लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू85195आरजे1992पीएलसी
006669/ 292--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा

(5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लेप्रोस्कोपिक्स
सर्जीरिल्स (यूएसएसएल) लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया
गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सतनाम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू17118आरजे1996पीटीसी011656/
293--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सतनाम मार्केटिंग
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सनसिटी कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू72100आरजे1995पीटीसी011225/
294--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनसिटी कम्प्यूटर
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स माई पीसी इन्फोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/यू72200आरजे2001पीटीसी017093/
295--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स माई पीसी इन्फोमेटिक्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त
कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

प्रम. पी. कुमार
महमन्नी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजपूताना एक्स एस एम सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 15 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/345--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजपूताना एक्स एस एम सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टुलीप कलेक्शंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2008

सं. आर.ओ.सी./560/13883/476--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टुलीप कलेक्शंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एच पी मार्बल्स एण्ड ग्रेनाईट्स टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 15 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/346--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एच पी मार्बल्स एण्ड ग्रेनाईट्स टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नीमराना साइन मैट्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

सं. आर.ओ.सी./560/21379/524--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नीमराना साइन मैट्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पंचम सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 15 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/347--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पंचम सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जिनयस मार्क-सर्व प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 19 मई 2008

सं. आर.ओ.सी./560/219291/706--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जिनयस मार्क-सर्व प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स महेश रबड़ इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 15 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जे.पी.आर./560/348--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स महेश रबड़ इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स दाउद एण्ड दाउद प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 23 मई 2008

सं. आर.ओ.सी./560/3657/804--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दाउद एण्ड दाउद

प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सी के एम बिल्ड टेक (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 14 मई 2008

सं. आर.ओ.सी./45846/एस.टी.ए./560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सी के एम बिल्ड टेक (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पान सुरीया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 14 मई 2008

सं. आर.ओ.सी./13740/एस.टी.ए./560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पान सुरीया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ट्रापेक्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 मई 2008

सं. 16/31297/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रापेक्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रेड बुल एनर्जी ड्रिंक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 मई 2008

सं. 00418/132721/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रेड बुल एनर्जी ड्रिंक प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एम्वे डिटर्जेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 मई 2008

सं. 00360/36545/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम्वे डिटर्जेन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 9 मई 2008

सं. 560(3) एस.एम./आर.ओ.सी./एरनाकुलम/7329/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी :-

क्र. सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	7724	मैसर्स दी काट्टुमपुरम फाईनान्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	8595	मैसर्स जोस्को फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	8618	मैसर्स चाकरा अकुआ फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	8631	मैसर्स कोडुगल्लूर कुरीज लोन्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	8671	मैसर्स भवानी एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	8717	मैसर्स मोर रियल एस्टेट एण्ड प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	8719	मैसर्स पूमान अप्पारेल प्राइवेट लिमिटेड
8.	8739	मैसर्स पारको फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	8819	मैसर्स बोर्न टफ रबर्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
10.	8864	मैसर्स फेमिली फिसिकल फिटनेस प्राईवेट लिमिटेड	41.	9396	मैसर्स श्री वैशनवा कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	8917	मैसर्स नेच्यार मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	42.	9406	मैसर्स क्रानोसैन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
12.	8944	मैसर्स नोहज आर्क ट्रेड लैनज प्राईवेट लिमिटेड	43.	9420	मैसर्स साउथ वेस्ट टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड
13.	8957	मैसर्स ग्रीको कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	44.	9421	मैसर्स अयोध्या टैवलस प्राईवेट लिमिटेड
14.	9025	मैसर्स एसोसियेटेड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड	45.	9450	मैसर्स गसकर प्राईवेट लिमिटेड
15.	9035	मैसर्स फरटी साउन्डस् डण्डिया प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड	46.	9461	मैसर्स कारलोब कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
16.	9056	मैसर्स अरोमा होटल्स एण्ड इन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड	47.	9478	मैसर्स मनचुलाल कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	9059	मैसर्स कमान्ड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	48.	9495	मैसर्स स्पेल कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	9064	मैसर्स सायी रिसोर्टज प्राईवेट लिमिटेड	49.	9502	मैसर्स इण्डियाडैरट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	9066	मैसर्स रजत रियालटर्ज प्राईवेट लिमिटेड	50.	9529	मैसर्स कोचिन कोटिंगज एण्ड फौब्रिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	9078	मैसर्स बिलियन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	9538	मैसर्स अल हिदाया रिफार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	9106	मैसर्स फार रिच ट्रेड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	52.	9539	मैसर्स सथर्न पैन्ज प्राईवेट लिमिटेड
22.	9165	मैसर्स एरीस टेक्नीकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	53.	9545	मैसर्स एम सी बिन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
23.	9190	मैसर्स घनवन्तरी रेमडीज प्राईवेट लिमिटेड	54.	9555	मैसर्स प्रिस्म सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	9194	मैसर्स लेन्टज लिफ्टिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	55.	9562	मैसर्स चक्काचेरिल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	9208	मैसर्स गोलडन सिन्डीकेट प्राईवेट लिमिटेड	56.	9568	मैसर्स फिफा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	9215	मैसर्स केसिया बिल्डर्स एण्ड प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	9585	मैसर्स फोरमा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	9223	मैसर्स आरती बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	58.	9592	मैसर्स वर्ल्ड वैड एजुकेशनल कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	9235	मैसर्स हैलान्ड हाउसिंग एण्ड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	59.	9623	मैसर्स गस्ट कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	9243	मैसर्स सभा ओटोटेक प्राईवेट लिमिटेड	60.	9629	मैसर्स वर्ल्डफेयर गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	9277	मैसर्स लक्ष्मीधारा बिल्डर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	61.	9632	मैसर्स विश्वास कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
31.	9293	मैसर्स सजमिया कन्स्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	62.	9636	मैसर्स जे के माइक्रो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	9301	मैसर्स फेमिली इनशुर्ड फार्म प्राईवेट लिमिटेड	63.	9646	मैसर्स एम आर ए फाउंडेशन एण्ड होस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
33.	9315	मैसर्स कोडुंगल्लूर क्रेडिटज एण्ड चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	64.	9681	मैसर्स एपच कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	9328	मैसर्स रिगलिया इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	65.	9691	मैसर्स फेयर प्लान्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	9246	मैसर्स फ्रामा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	66.	9716	मैसर्स आरषा टेक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	9279	मैसर्स मोयो टूरिस्ट एड्स प्राईवेट लिमिटेड	67.	9740	मैसर्स एस वी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	9343	मैसर्स पोर्ट कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड	68.	9743	मैसर्स के आर एस सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	9356	मैसर्स चिटिलाप्पली कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड	69.	9756	मैसर्स फिल्म लोग प्राईवेट लिमिटेड
39.	9358	मैसर्स इलफोटक प्राईवेट लिमिटेड	70.	9757	मैसर्स नवराग एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	9363	मैसर्स डी बी अप्पारलान्स एण्ड गारमेन्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	71.	9761	मैसर्स रेयिनबो कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड
			72.	9778	मैसर्स अमोग ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
73.	9828	मैसर्स मलयियल रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
74.	9834	मैसर्स क्यून्स लैन्ड कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
75.	9887	मैसर्स मिडल ईस्ट फ्यूल लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	9890	मैसर्स लक्ष्मी स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	9891	मैसर्स मार्थ लैन्ड मार्शलर्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	9893	मैसर्स हाईलाइट इण्डिया टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	9951	मैसर्स पदमा अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	9966	मैसर्स ए एम सी फ्राइट कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	9993	मैसर्स टोकसल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	9996	मैसर्स पल्लीकुलम कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	9976	मैसर्स इण्डिया रिव्यु लिमिटेड
84.	9984	मैसर्स कोचिन प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	9999	मैसर्स गुड अर्थ एग्री एन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड

के. श्रीकुमार
सहायक कम्पनी पंजीयक
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चेन्नई, दिनांक 22 मई 2008

सं. 23077 एण्ड 30546/560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	23077	मैसर्स श्री कृष्णा बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
2.	30546	मैसर्स अरूण रिसोर्ट्स एण्ड बिल्डर्स लिमिटेड

डी. सूर्यनारायणा
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपसंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
कोयंबतूर-641005, दिनांक 28 मई 2008

सं. आर.ओ.सी./सी.बी.ई/560(5)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :--

1	2	3
611.	6744	मैसर्स सेवरायस एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
612.	6752	मैसर्स रोक्स इन्डिया पल्परैस प्राईवेट लिमिटेड
613.	6758	मैसर्स लिब्रान फोरक्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
614.	6760	मैसर्स सैवलरसेल्वी टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
615.	6768	मैसर्स एम आर बायोकाम्प प्राईवेट लिमिटेड
616.	6777	मैसर्स श्री वंगालम्पन फौब्रिक प्राईवेट लिमिटेड
617.	6781	मैसर्स जे. के. आर. स्पिंगिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
618.	6796	मैसर्स लाली होलीडे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
619.	6822	मैसर्स अजंता प्लाईवूड प्राईवेट लिमिटेड
620.	6824	मैसर्स श्री रागा जूट मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
621.	6825	मैसर्स टासमेन ग्रेनाईट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
622.	6826	मैसर्स उन्नीसन्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
623.	6828	मैसर्स अप्पाजीस एग्री-एग्री एण्ड फ्लोराटेक लिमिटेड
624.	6829	मैसर्स अप्पाजीस रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स लिमिटेड
625.	6853	मैसर्स कॉटन प्लैस गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
626.	6856	मैसर्स दिपम प्रोसेस प्राईवेट लिमिटेड
627.	6861	मैसर्स सिटी गोट फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
628.	6864	मैसर्स दिरा कर्मशियल एण्ड होम केअर प्राईवेट लिमिटेड
629.	6869	मैसर्स सनको एग्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
630.	6871	मैसर्स हैग्रो फार्म्स लिमिटेड
631.	6879	मैसर्स कोयंबतूर लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
632.	6891	मैसर्स सुरानवस्त्रा गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
633.	6900	मैसर्स श्री अरसू एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
634.	8224	मैसर्स कुडल मिनरल वाटर प्राईवेट लिमिटेड
635.	8235	मैसर्स बपल साफ्टसर्व एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
636.	8242	मैसर्स एम्परर मेनपार्वस प्राईवेट लिमिटेड
637.	8247	मैसर्स पी. टी. होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
638.	8254	मैसर्स डेनोसार मेटल प्रोफाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
639.	8269	मैसर्स फन्टसिया अम्युसमेन्ट पार्क प्राईवेट लिमिटेड
640.	8275	मैसर्स मारवा इन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड
641.	8277	मैसर्स बिलबोर्ड कोरियर प्राईवेट लिमिटेड
642.	8291	मैसर्स जेन एयरकन्डीशनर्स प्राईवेट लिमिटेड
643.	8296	मैसर्स क्रोन्स ऑटोपार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
644.	8317	मैसर्स श्री कन्दवेल कॉटन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
645.	8335	मैसर्स श्री सप्तगिरी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
646.	8369	मैसर्स जी. जी. पी. फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	678.	9572	मैसर्स एसआरएस रबर टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
647.	8390	मैसर्स हारवेस्ट प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	679.	9574	मैसर्स ब्लासान टेक्नोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
648.	8403	मैसर्स नेक्स्टड्रोफ (इन्डिया) ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	680.	9580	मैसर्स एलएसपी बेकरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
649.	8413	मैसर्स प्लम्बलैइन कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	681.	9582	मैसर्स श्री पूरनिमा इम्पेक्स इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
650.	8414	मैसर्स अमुदसुरबी प्रोग्रेसिव सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	682.	9583	मैसर्स जी एस टी ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
651.	8433	मैसर्स पेन स्केन ग्राफिक्स इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड	683.	9591	मैसर्स अतरिया इन्फो सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
652.	8434	मैसर्स एल्लोरा एग्रोवेट फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	684.	9597	मैसर्स सेजिंग इंजीनियरिंग इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
653.	8436	मैसर्स चन्द्रपुरा एग्रो फार्म्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	685.	9608	मैसर्स कॉंगू मार्केट लाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
654.	8462	मैसर्स साजबास इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	686.	9610	मैसर्स अमन कम्प्यूटर साफ्टर प्राईवेट लिमिटेड
655.	8463	मैसर्स हॅन्स एन्ड हूक्स होलिडेस इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड	687.	9611	मैसर्स राजू इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
656.	8472	मैसर्स एसकेटी रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	688.	9615	मैसर्स शाइन नेट इन्फो टेक तमिलनाडु प्राईवेट लिमिटेड
657.	8492	मैसर्स सोवमनी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	689.	9621	मैसर्स डीम एफएक्स मल्टी मीडिया चैनल प्राईवेट लिमिटेड
658.	8498	मैसर्स एम. एस. जे. फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	690.	9624	मैसर्स डीआरएक्स कम्प्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
659.	9442	मैसर्स ईसन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	691.	9625	मैसर्स इलेक्स एक्सपोर्ट इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
660.	9448	मैसर्स अक्षय साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	692.	9634	मैसर्स नीलगिरिस आयुर्वेदिक हेल्थ केअर प्राईवेट लिमिटेड
661.	9449	मैसर्स सनसेल ऐनर्जी एन्ड टेक्नोलॉजी कोवै प्राईवेट लिमिटेड	693.	9635	मैसर्स सीसमेप्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
662.	9457	मैसर्स एसएनआर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	694.	9642	मैसर्स कावै गार्डन्स मल्टीवेल् मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
663.	9472	मैसर्स सीरपी नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	695.	9643	मैसर्स सिल्वरस्ट्रीक बिजनेस सर्विसेस इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
664.	9474	मैसर्स विजय सैन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	696.	9646	मैसर्स श्री गोकुल विष्णु डेयरी डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
665.	9478	मैसर्स क्रीसान टेरीक्लाथ प्राईवेट लिमिटेड	697.	9650	मैसर्स पिट्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
666.	9486	मैसर्स जयलक्ष्मी गनेशा टेक्स प्राईवेट लिमिटेड	698.	9654	मैसर्स मान्वेस्टर इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
667.	9503	मैसर्स जीवीएस बायो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड	699.	9657	मैसर्स सोमै फॉरेन सर्विसेस एन्ड वेन्डर्स इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
668.	9513	मैसर्स कबु इन्टरप्राईसेस प्राईवेट लिमिटेड	700.	9658	मैसर्स ओषका एक्सपोर्ट्स इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
669.	9514	मैसर्स एसपीसी टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड	701.	9660	मैसर्स एजुकैम्प टेक्नोलॉजीस एन्ड साफ्टवेयर सोल्युशन इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
670.	9523	मैसर्स प्रागमेटिक टेक्नोलॉजीस इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड	702.	9665	मैसर्स ईरोड टेक्सटाईल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
671.	9526	मैसर्स मंगलम सोल्युशन्स (कोयम्बतूर) प्राईवेट लिमिटेड	703.	9667	मैसर्स सर्व शरदा बिजनेस सोल्युशन्स इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
672.	9530	मैसर्स बी पी के कॉटन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	704.	9668	मैसर्स लोगु बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
673.	9531	मैसर्स रूकमेटेक्स इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड	705.	9670	मैसर्स युनीमेग कोवै मेडीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
674.	9540	मैसर्स वेथेन वेट प्राइन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	706.	9689	मैसर्स के. एस. बायो पावर प्राईवेट लिमिटेड
675.	9555	मैसर्स शिवराम कॉटन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड			
676.	9556	मैसर्स जे. बी. एस. कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड			
677.	9558	मैसर्स मास डिस्सी कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
707.	9694	मैसर्स आनुर फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
708.	9696	मैसर्स हाईटेक युनिवर्सल इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
		पी. राजगोपालन कम्पनी पंजीयक तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 27 मई 2008

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/टीए/560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएंगी :--

क्र. सं.	क. रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	24474	मैसर्स कुंदोधरी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	24353	मैसर्स फिंगलीक्स क्लॉथिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	24320	मैसर्स श्री गुरु प्रापटीस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4.	24319	मैसर्स फ्रंटलाइन आटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	24239	मैसर्स सिम्पल सिलिकॉम प्राईवेट लिमिटेड
6.	24261	मैसर्स मेथियास लाइसेन्स प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
7.	24260	मैसर्स मेथियास मार्केटिंग एन्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
8.	24258	मैसर्स इंटेली साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	24224	मैसर्स जीपीसीआईजी फार्म्स लिमिटेड
10.	24186	मैसर्स ईगल आर्लेंड हार्ड-टेक डिस्ट्रीब्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	24185	मैसर्स विजकिट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
12.	24030	मैसर्स श्री साई विशाल फाइनेन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
13.	24016	मैसर्स रीमेक कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
14.	24387	मैसर्स गोल्डन टीम डेवलपर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
15.	24727	मैसर्स बिजेल बाटलीबॉय प्राईवेट लिमिटेड
16.	24440	मैसर्स ईस्पात ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
17.	28746	मैसर्स रायल आफिस इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड
18.	28029	मैसर्स ज़ास्मीन नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	24840	मैसर्स परफेक्ट एलॉय कम्पोजिट्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	27388	मैसर्स पावर जंक्शन डॉट कॉम प्राईवेट लिमिटेड
21.	27027	मैसर्स सिसलॉजिक इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
22.	27733	मैसर्स इप्सीलॉन सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
23.	24998	मैसर्स जे. एस. एल. ट्रेड कनेक्शन प्राईवेट लिमिटेड
24.	28514	मैसर्स बेंटेल टेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	28645	मैसर्स रॉयल फिशरीस प्राईवेट लिमिटेड
26.	27007	मैसर्स ई-डेन नेटवर्क्स लिमिटेड
27.	25304	मैसर्स एस. वी. फैशन प्राईवेट लिमिटेड
28.	25165	मैसर्स इन्फोप्रिज्म टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
29.	26361	मैसर्स मेट्रो इन्फोटेक लिमिटेड
30.	9831	मैसर्स क्रिश कन्सल्टन्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	26043	मैसर्स क्वाड्रा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	24960	मैसर्स आई.आई.क्यू. इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	24946	मैसर्स नरोत्तम सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
34.	25063	मैसर्स वेस्टारुन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
35.	24606	मैसर्स साइलेंट इंजीनियर्स एंड कांटेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	24619	मैसर्स सिंकलेर अपरेल प्राईवेट लिमिटेड
37.	25740	मैसर्स बिटसॉफ्ट टेक्नॉलाजीस प्राईवेट लिमिटेड
38.	26692	मैसर्स पावरएज इन्फोस्टेक प्राईवेट लिमिटेड
39.	24862	मैसर्स नोवेल बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
40.	24657	मैसर्स श्रीशैल नन्दी फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
41.	24785	मैसर्स हार्डएलॉय हीट इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
42.	9027	मैसर्स क्रियेटिव लेदर फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	9536	मैसर्स वीनस फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	9859	मैसर्स लोनस्टार आटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बैंगलूर, दिनांक 29 मई 2008

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/डीआरओसी/560(3)/JK/2008--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज से तीन
महीने के बाद रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित हो
जाएंगी :--

क्र. सं.	क. रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1.	4734	मैसर्स ट्रान्स टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
2.	3551	मैसर्स होरीजन स्टील प्राईवेट लिमिटेड
3.	7860	मैसर्स राम ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	9357	मैसर्स पी एफ एल इलेक्ट्रिक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5.	3553	मैसर्स मेटारोला प्राईवेट लिमिटेड।

ए. एम. श्रीधरन
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार
कर्नाटक

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023,

No. 2/3/08-Admn./12032.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Ms. Sarasvathy Sivaramakrishnan, IRSME (91) as Commissioner for Departmental Inquiries (Director level) in the Commission on Central deputation basis in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the forenoon of 26.05.2008, for a period of five years or till further order whichever is earlier.

SURJIT SINGH
Officer on Special Duty (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 28th May 2008

No. O.II.3769/08-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Vasant Murari Kumbhare (IRLA-7494) as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in temporary capacity from the forenoon of 28.3.2008 till further order. He is posted to 29 Bn, CRPF, Srinagar, J & K, C/o 56 APO.

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers.-I)

The 29th May 2008

No. O.II. 5179/08-PF-Pers-I.—Consequent on acceptance of his notice of resignation dated 15.03.2008 from Government service, by the competent authority, Shri Rajeev Kumar Singh Senger, Dy. Commandant (IRLA-5179) of 07 Bn, CRPF, has relinquished his post on 16.05.2008 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 16.05.2008 (AN).

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers-I)

DIRECTORATE GENERAL,
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 27th May 2008

No. E-28017/1/Noti./2008/Pers-II/990.—Consequent to his retirement from Govt. Service on attaining the age of superannuation, Shri L. C. Hasija, relinquished the charge of the post of Deputy Commandant, CISF 5th Res Bn, Ghaziabad in the afternoon of 30.04.2008.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

The 28 May 2008

No. E-16015(2)/2/2007/Pers. I/162.—The President is pleased to appoint Shri P. K. Panda, Assistant Commandant/

Exe on promotion notionally to the rank of Deputy Commandant/Exe in CISF on regular basis with effect from 29.09.2006 (FN). He assumed the charge of the post of Deputy Commandant/Exe on regular promotion 23.04.2008 (FN) at CISF RTC Mundali.

2. The notional date of promotion in the rank of Deputy Commandant/Exe would only safeguard his seniority and he will not be entitled for arrears of pay and allowances of the post of Deputy Commandant/Exe from the date of his notional promotion. He is entitled for pay and allowances from the date he assumed the charge on regular promotion as Deputy Commandant.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

No. E-16015/(2)/2/2007/Pers. I/163.—The President is pleased to appoint the following Additional Deputy Inspector General to the rank of Deputy Inspector General in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Deputy Inspector General on regular basis
	(S/Shri)		
1.	Y. N. Sharma	CCL Kargali	22.05.2008 (AN)
2.	S. Nayak	VPT Vizag	22.05.2008 (AN)
3.	G. L. Khichi	SSG Delhi	22.05.2008 (AN)
4.	S. N. Kaul	FHQ New Delhi	22.05.2008 (AN)
5.	D. S. Murdeshwar	NEZ Hqrs Kolkata	23.05.2008 (FN)
6.	Anil Kumar	FHQ New Delhi	22.05.2008 (AN)

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

No. E-16015/(2)/2/2007/Pers. I/164.—The President is pleased to appoint the following Assistant Commandant/Exe on regular promotion to the rank of Deputy Commandant in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Deputy Commandant on regular basis
	(S/Shri)		
1.	Rajeev Kumar Sharma	CPM Panchgram	17.03.2008
2.	V. B. Singh	DHEP Dulhasti	14.04.2008 (AN)
3.	A. K. Gupta	BCCL/CCWO Dhanbad	07.05.2008

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

MINISTRY OF FINANCE

BANK NOTE PRESS

A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING
CORPORATION OF INDIA LIMITED)

Dewas, the 22nd May 2008

No. BNP/C/44/98-I.—Shri A. P. Udawat Deputy Technical Officer (Ink Factory) is promoted to the post of Technical Officer (Ink Factory) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (Group-B Gazetted) w.e.f. 01.05.2008 on regular basis until further orders.

SHASHIBHUSAN BEHERA
Dy. General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 1st May 2008

No. Admn. I/1255-IV/2008-2009/165.—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 30.4.2008, Shri Ajit Kumar Kar, Section Officer is promoted as Asstt. Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- w.e.f. 01.05.2008 (FN) or the date of taking over charge as Asstt. Accounts Officer, whichever is later.

On promotion, his pay will be fixed under FR 22 I (a) (i) for which he may exercise option within one month from the date of his promotion.

J. R. BISWAS
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

No. Admn. I/1255-IV/2008-2009/166.—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 30.4.2008, the following Section Officer who is now working in the office of the principal Director of Audit (Central), Kolkata on deputation basis has been granted proforma promotion as Asstt. Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- w.e.f. the date on which his junior as shown below takes over charge as Asstt. Accounts Officer in this office :—

Name of the person granted proforma promotion	Name of his next Junior
Sh. Prabir Kumar Das-II	Sh. Ajit Kumar Kar

All the conditions Precedent to the grant of promotion under the "Next Below Rules" stand fulfilled in this case and it has been declared that the post held by Sh. Das on deputation is outside the ordinary line of service.

On promotion, his pay will be fixed under FR 22-I (a) (i) for which he may exercise his option within one month from the date of his promotion.

J. R. BISWAS
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 30th May 2008

No. S/1/2008-C.P. I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001 = 100 increased by 1 point and stood at 138 (one hundred & thirty eight) for the month of April, 2008.

R. K. GUPTA
Jt. Dir.

MINISTRY OF MINES

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 26th May 2007

No. 1422 A./A-32013/4-Driller (Grade-II)/2006/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, GSI is pleased to approve the appointment of Shri T. J. S. S. Kumar, STA (Drilling) in Geological Survey of India on promotion to the post of Driller Grade-II in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis with effect from 04.10.2007 (FN) until further orders.

KARTIKEYA VERMA
Administrative Officer (Gr. I)
For Dir. Gen.

Kolkata-700016, the 28th May 2008

CORRIGENDUM

No. 1655 SP/A-32013/SO/2007-19A.—In partial modification of this Office Notification No. 3011SP to 3022 SP & 2489B to 2506 B/A-32013/SO/2007/19A dated 12.09.07 & 3875 SP of even number dated 21.11.07 the date of assumption of charge to the post of Stores Officer on promotion in respect of Shri Dev Raj Raina, at Sl. No. 06, may please be read as 23.05.2007 (FN) instead of 18.6.2007 (FN).

The other terms and conditions will be remain unchanged.

D. I. SYIEMLEH
Dir. (P & A)
For Dir. Gen.

Kolkata-16, the 29th May 2008

No. 1719 SP/A-32013/4-DDG (Drilling)/90/19B.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President of India is pleased to approve the appointment of the following Director (Drilling) on promotion as Dy. Director General (Drilling) in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 18,400-500-

22,400/- in an officiating capacity with effect from the dates mentioned against each until further orders.

Sl. No.	Name	Date of effect
01.	Sh. A. Vasudevan	01.01.2008 (AN)
02.	Sh. C. P. Dusad	01.01.2008 (AN)

B. M. GALAV
Sr. Administrative Officer
For Dir. Gen.

The 30th May 2008

No. 941/B/A-19011 (1-SBVK)/07/19A.—The President is pleased to appoint Shri S. B. Vijay Kumar to the post of Geologist (Jr.) (Group 'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 28.01.2008 until further orders.

The aforesaid appointment is provisional and subject to verification of caste status furnished by the Competent Authority.

B. M. GALAV
Senior Administrative Officer
for Dir. Gen.

Kolkata-700016, the 30th May 2008

No. 1724 SP/D-11011/1/Jharkhand/2007-21.—The Director General, Geological Survey of India, is pleased to announce the opening up of a new Operation office of GSI at A/433, Road No. 5, Ashoknagar, Ranchi under the technical and administrative control of GSI, Eastern Region, Op : Bihar & Jharkhand, with effect from 26.09.2007. Ministry of Mines, Government of India had earlier approved the same vide their letter No. 27/20/2002-M-II. dt. 16.06.2007.

Geological Survey of India has long been engaged in Geological Mapping and Mineral investigation in the state of Jharkhand, a mineral-rich region by nature and already deciphered quite a few important economic mineral bearing zones, particularly Gold. Recently, Geochemical Mapping has been started in the state, which will help in search of hidden mineral prospect in the area.

Hitherto, the operation of all the Geological and mineral investigations was being carried out by Op : Bihar & Jharkhand, GSI, E.R., Patna. With the opening of the GSI Office at Ranchi a greater impetus can be exerted in the state in search of new mineral prospect and other Geological studies.

A. K. RAY
Director (Pers. & Admn.)
For Dir. Gen.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 26th May 2008

Ref. : PD/11(1)/2008-R-III/2008/4365.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Kum. Lalitha S. Das, Assistant Accountant as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from 10.03.2008 (FN) to 16.05.2008 (AN).

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 19th May 2008

No. 20/13(1)/2008-CCS/06.—The President is pleased to appoint Shri Virendrakumar Dinkarlal Talati, Assistant Personnel Officer (Scale of pay Rs. 6,500-10,500/-), Heavy Water Plant, Baroda of this Department as Administrative Officer-III (Scale of pay Rs. 10,000—15,200/-) in the same Plant on ad-hoc basis with effect from 18.02.2008 (FN) to 20.03.2008 (AN).

SOBHA DEVIN.
Under Secy.

Mumbai-400001, the 14th May 2008

No. 12/2(3)/2007-I&M (AMD)/27.—The question of refixation of prices of beryl has been engaging the attention of the Government of India for some time past. Keeping in view the present cost of production, domestic consumption and strategic uses of the mineral, and in supersession of notification No. 6/7/67-M dated 19.8.1968, No. 6/7/67-M dated 19.4.1969 and No. 9/1/92-AMD (R&D)/1820 dated 6.12.1993, on the subject, it has been decided to revise the purchase price of beryl ore (lump) and beryl churi, as under :

- For lump beryl ore (size +30 mesh) analysing 10% BeO and above, the price will be Rs. 11,000/- per unit BeO per metric tonne.
- For beryl churi (size -30 mesh) BeO content of 10% and above, the rate will be paid at 50% of the rate of beryl lump as above.
- No beryl consignment analyzing less than 10% BeO will be accepted until further notification. Mine owners are advised to sort and remove impurities, upgrade beryl ore and offer for sale those consignments analyzing 10% BeO and above.
- The railway freight from the nearest railway head to Departmental Godown will be paid by the government as before.

These prices will be effective in respect of beryl consignments despatched on or after the date of issue of this notification and until further orders.

Further details regarding sampling/supply/transport and despatch instruction may be obtained from the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, 1-10-153-156, Begumpet, Hyderabad-500016, Andhra Pradesh.

A. K. V. NAIR
Under Secy.

No. 12/2(3)/2007-I&M (AMD)/28.—Refixation of prices of minerals, ores and slag/residue of niobium and tantalum keeping in view the various factors such as utilization, production, trend, strategic importance, fair prices etc. has been under consideration of Government of India. In supersession of the Notification No. 9/1/92-AMD (R&D) dated 6.12.1993 on the subject, it has been decided to revise the purchase price of such materials as under:

Niobium Ore :

- (i) 30—49.99% (Nb+Ta)₂O₅ : Rs. 120/- per kg of contained pentoxide
- (ii) 50% and above (Nb+Ta)₂O₅
 - (a) Less than 10% Ta₂O₅ : Rs. 150/- per kg of contained pentoxide
 - (b) More than 10% Ta₂O₅ : Rs. 210/- per kg of contained pentoxide

Tantalum Ore :

- (i) 30—49.99% Ta₂O₅ : Rs. 360/- per kg of contained pentoxide
- (ii) 50% and above Ta₂O₅ : Rs. 500/- per kg of contained pentoxide

2. It is further notified that niobium tantalum bearing residues analyzing more than 50% (Nb+Ta)₂O₅ generated by tin plants and offered by State Mining Corporations and private parties would be purchased by Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD) at prices notified as above.

3. These prices will be effective in respect of consignments of minerals, ores, slag/residue of niobium and tantalum as above, despatched on or after the date of issue of this notification and until further orders.

4. Further details on sampling/sale/transport and despatch instructions may be obtained from the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, 1-10-153-156, Begumpet, Hyderabad-500016, Andhra Pradesh.

A. K. V. NAIR
Under Secy.

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 29th May 2008

Ref. : NFC/ADM/PEN/EC-2228/2042.—On attaining the age of superannuation, Shri A Narayana, Scientific Officer 'G' (Scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.01.2008 (AN).

K. S. MURTY
Asstt. Personnel Officer

Ref. : NFC/ADM/PEN/EC-0846/2043.—On attaining the age of superannuation, Shri B. R. Acharya, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.01.2008 (AN).

K. S. MURTY
Asstt. Personnel Officer

Ref. : NFC/ADM/PEN/EC-3851/2044.—On attaining the age of superannuation, Shri B. Laxminarayana, Scientific officer 'H' (Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.01.2008 (AN).

K. S. MURTY
Asstt. Personnel Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gadodia Electronics Limited

New Delhi-110019, the 26th June 2007

No. 560(3)Regular/U74899/OL1980PTC010227/2420.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gadodia Electronics Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. National Financing Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1948PTC000633/1.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. National Financing Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mundhra Metal Works Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1949PTC000771/2.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mundhra Metal Works Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Roadways Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U60231RJ1949PTC000786/3.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Roadways Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sobhag Agencies Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1950PTC000826/4.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sobhag Agencies Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Cloth Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U74994RJ1951PTC000890/5.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Cloth Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bharat Extrusion (Kota) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1960PTC001091/7.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bharat Extrusion (Kota) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tirath Sundream and Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1961PTC001112/8.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tirath Sundream and Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Engineering Corporation Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1961PTC001136/9.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Engineering Corporation Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaipur Engineering and Electrical Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U31909RJ1964PLC001180/10.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jaipur Engineering and Electircal Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

Finance and Trading Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Panpalia Autoparts Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51109RJ1965PTC001195/11.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Panpalia Autoparts Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jodhpur Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1968PTC001252/15.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jodhpur Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalsi Tyres (Jaipur) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U25111RJ1965PTC001202/12.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kalsi Tyres (Jaipur) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bombay Okara Carriers Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U60231RJ1969PTC001262/17.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bombay Okara Carriers Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Metal Works Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27101RJ1965PTC001203/13.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Metal Works Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R R Loiya Sons (Bidi) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U16002RJ1970PTC001313/18.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R R Loiya Sons (Bidi) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Khutatia Finance and Trading Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1966PTC001213/14.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khutatia

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. J T Precision Castings Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27310RJ1970PTC001315/19.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J T Precision Castings Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Speeder Tyre and Tube Mfg. Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U25111RJ1970PTC001316/20.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Speeder Tyre and Tube Mfg. Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gautam Tyres Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U25111RJ1970PTC001325/21.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gautam Tyres Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Civil Engineer Consultant Manufactures
and Builders Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1970PTC001332/22.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Civil Engineer Consultant Manufactures and Builders Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sri Ganganagar Self Help Financiers Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1970PTC001335/23.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Ganganagar Self Help Financiers Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Filter-Aids and Chemicals India Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U74999RJ1971PTC001371/24.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Filter-Aids Chemicals India Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Atul Savings and General Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1971PTC001383/25.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Atul Savings and General Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Marwar Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1971PTC001384/26.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jai Marwar Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. RE Coke and Coal Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U23101RJ1972PTC001399/28.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. RE Coke and Coal Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gopal Machinery Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U29999RJ1972PTC001400/29.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gopal Machinery Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Electro Asiatic Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U31200RJ1972PTC001411/31.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Electro Asiatic Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaipur Steel Furniture Manufacturers Association
Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U2811RJ1972PTC001414/32.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jaipur Steel Furniture Manufacturers Association Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bharat Agrovat Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U5121RJ1972PTC001418/33.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bharat Agrovat Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sukhada Saving and General Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1972PTC001421/34.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sukhada Saving and General Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kusum Lamps Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U31501RJ1972PTC001422/35.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kusum Lamps Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaipur Steel Castings and Forgings Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1972PTC001429/36.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jaipur Steel Castings and Forgings Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Bricks Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U2693RJ1972PTC001440/38.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan

Bricks Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaipur Bottles and Containers Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26103RJ1972PLC001449/39.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jaipur Bottles and Containers Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Daulat Trading Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1972PTC001456/40.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Daulat Trading Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saket Chemical Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1973PTC001471/41.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saket Chemical Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Incon India Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U36998RJ1973PLC001474/42.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Incon India

Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Spring Leaves Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U34300RJ1973PTC001475/43.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Spring Leaves Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Blades Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U28939RJ1973PLC001482/44.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Blades Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Neeraj Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1973PTC001486/45.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neeraj Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shikha Tourism and Commercial Complex Private
Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U63040RJ1973PTC001488/46.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shikha Tourism and Commercial Complex Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sri Ganganagar Khudra Bhandar Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U52190RJ1973PTC001513/47.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Ganganagar Khudra Bhandar Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rashtriya Pashann Avam Khanij Udyog Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1973PTC001525/48.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rashtriya Pashann Avam Khanij Udyog Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dada Distributors Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1973PLC001530/49.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dada Distributors Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Build-Maco Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1973PTC001532/50.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Build-Maco Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gopal Enterprises Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1974PTC001571/51.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gopal Enterprises Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arrawatia Chemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24241RJ1975PTC001622/52.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arrawatia Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swastik Oil Extraction and Chemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14141RJ1975PTC001634/53.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Swastik Oil Extraction and Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Himachal Minerals and Chemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1975PTC001637/54.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Himachal

Minerals and Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhavana Stones Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1975PTC001638/55.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhavana Stones Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jiwan Savings and General Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1975PTC001644/56.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jiwan Savings and General Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vipul Enterprises (Credit and Thrift) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1975PTC001657/57.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vipul Enterprises (Credit and Thrift) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Ganesh Talkies Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U92120RJ1975PTC001665/58.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ganesh Talkies

Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rastriya Savings and Finances Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1975PTC001667/59.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rastriya Savings and Finances Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Guru Nanak Oils Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1976PTC001668/60.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Guru Nanak Oils Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanjay Enterprises (Financiers and Traders) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1976PTC001669/61.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanjay Enterprises (Financiers and Traders) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Heda Sewing Machine Works Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U29262RJ1976PTC001670/62.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Heda Sewing Machine Works Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamal Savings and Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1976PTC001671/63.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kamal Savings and Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajdhani Savings and Finance Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1976PTC001673/64.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajdhani Savings and Finance Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anu and Prince Steel Mills Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1976PTC001678/65.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anu and Prince Steel Mills Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nita Udyogik Vastu Bhandar Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U52190RJ1976PTC001679/66.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nita Udyogik

Vastu Bhandar Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kudal Savings and General Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1976PTC001687/67.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kudal Savings and General Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Baldua Electronics Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51395RJ1976PTC001689/68.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Baldua Electronics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sikar Savings and General Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1976PTC001690/69.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sikar Savings and General Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pareek Savings and Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1976PTC001694/70.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pareek Savings

and Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagyodaya Saving and Finance Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1976PTC001698/71.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhagyodaya Saving and Finance Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jammu Savings and General Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1976PTC001699/72.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jammu Savings and General Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sumati Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1976PTC001700/73.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sumati Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sathi Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1976PTC001707/74.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sathi Finance

Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Damani Motors Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U50101RJ1976PTC001709/75.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Damani Motors Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sogoni Udyog (Khandsari) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15424RJ1976PTC001715/76.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sogoni Udyog (Khandsari) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nand Alok Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U01122RJ1976PTC001719/77.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nand Alok Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shubh Laxmi Marbles Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1976PTC001740/78.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shubh Laxmi

Marbles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

Minerals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swastika Spinning and Weaving Mills Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U17111RJ1977PTC001744/79.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Swastika Spinning and Weaving Mills Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tour Comforts Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U63040RJ1978PTC001810/84.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tour Comforts Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. D. Fabrics Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1977PTC001750/80.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. D. Fabrics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Everest Pottery Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26912RJ1978PTC001843/85.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Everest Pottery Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Karnee Saving Scheme Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1977PTC001755/81.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Karnee Saving Scheme Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaipur Jute Manufacturing Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U17119RJ1979PTC001858/86.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jaipur Jute Manufacturing Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mosaie and Minerals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1978PTC001804/82.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mosaie and

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mayur Gelatine and Fertilizers India Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24124RJ1979PTC001894/87.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mayur

Gelatine and Fertilizers India Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alpha Alloys Steels Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27100RJ1979PTC001897/89.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alpha Alloys Steels Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. De-Chemo (India) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1979PTC001898/90.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. De-Chemo (India) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ratan Paper Industries Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U21012RJ1979PLC001902/91.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ratan Paper Industries Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Poonam Finance Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1979PLC001914/92.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Poonam

Finance Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Electrical
Contractors Merchants Association (Raj.) Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U91110RJ1979PTC001919/93.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Electrical Contractors Merchants Association (Raj.) Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mayur Cement Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1979PTC001921/94.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mayur Cement Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chetak Autosprings Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1979PTC001927/95.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chetak Autosprings Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shekhawati Textile Mills Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1979PLC001930/96.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shekhawati Textile Mills Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bali Cables Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1979PTC001932/97.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bali Cables Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bomhay Jaipur Transport Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U60231RJ1979PTC001961/99.—Notice is hereby given pursuant to Sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bombay Jaipur Transport Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Parihar Utpadan Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24245RJ1980PTC001969/100.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Parihar Utpadan Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arora Traffic Markings Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24222RJ1980PTC002043/105.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arora Traffic Markings Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bright Electricals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51395RJ1980PTC001979/102.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bright Electricals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Works of Art Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U18101RJ1980PTC002015/103.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Works of Art Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Cimpadyne India Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U72300RJ1980PTC002027/104.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cimpadyne India Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Refineries Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1980PLC002043/105.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Refineries Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. I-Lite Optics Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U33201RJ1980PTC002045/106.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. I-Lite Optics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Shree Marble Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1980PTC002050/107.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jai Shree Marble Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. International Conductors Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1980PTC002067/108.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. International Conductors Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Palawat Properties Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1980PTC002091/109.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Palawat Properties Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chitra Pradarshan Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1980PTC002093/110.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chitra Pradarshan Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Venus Marbles Enterprises Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1980PTC002109/111.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Venus Marbles Enterprises Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanjay Engineering Services Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51420RJ1980PTC002117/112.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanjay Engineering Services Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Panchsheel Agencies Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1980PTC002119/113.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Panchsheel Agencies Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kutumb General Trading Co. Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1980PLC002123/114.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kutumb General Trading Co. Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Asbestos Cement (Rajasthan) Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1980PLC002130/115.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Asbestos Cement (Rajasthan) Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Agarwal Ceramics Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26933RJ1980PTC002142/116.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Agarwal Ceramics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Annapurana Chemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1980PTC002150/117.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Annapurana Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tripura Fabrics Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1981PTC002158/118.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tripura Fabrics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Orient Gum Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24139RJ1981PTC002163/119.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Orient Gum Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Excellent Rubber Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U25191RJ1981PTC002195/120.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Excellent Rubber Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Delhi Multi Tech Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U25201RJ1981PTC002196/121.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Delhi Multi Tech Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Grinders Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1981PTC002217/122.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jai Grinders Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Manish Manju Marbles Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1981PTC002219/123.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manish Manju Marbles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marwar Multi Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26343RJ1981PTC002221/124.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marwar Multi Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Carnation Textile Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1981PTC002226/125.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Carnation Textile Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Powdrex (India) Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U28910RJ1981PLC002236/126.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Powdrex (India) Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marabar Pharmaceuticals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1981PTC002254/128.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marabar Pharmaceuticals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Raj Boards and Chemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U21012RJ1981PTC002272/129.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Raj Boards and Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jeevan Phosphates and Chemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24121RJ1981PTC002274/130.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jeevan Phosphates and Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Microwax (India) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U23201RJ1981PTC002277/131.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Microwax (India) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shekhawati Chemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1981PTC002280/132.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shekhawati Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arvind Enterprises Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1981PTC002281/133.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arvind Enterprises Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lahoty Constructions Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1981PTC002288/134.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lahoty Constructions Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Premier Electrodes Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U31908RJ1981PTC002289/135.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Premier Electrodes Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Urvashi Hotels Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1981PTC002291/136.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Urvashi Hotels Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R. Tubes Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U25201RJ1981PTC002305/137.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. Tubes Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhilwara Metals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1981PTC002307/138.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhilwara Metals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Continental Foregings Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27101RJ1981PTC002330/139.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Continental Foregings Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagwati Enterprises Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1981PTC002344/140.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhagwati Enterprises Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Udaipur Synthetics Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1981PTC002360/141.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Udaipur Synthetics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jan Kalyan Finance and Investment Co. Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1981PLC002364/142.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jan Kalyan Finance and Investment Co. Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaingo Ispat Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1981PTC002365/143.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jaingo Ispat Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hamir Enterprises Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002386/144.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hamir Enterprises Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivrani Enterprises Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002387/145.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shivrani Enterprises Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kailash Oil Mills Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1982PTC002388/146.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kailash Oil Mills Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Laxmi Lime and Cement Works Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002402/147.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Laxmi Lime and Cement Works Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Joysina Trading Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002406/148.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Joysina Trading Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R. Kumar Enterprises Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002407/149.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. Kumar Enterprises Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alwar Thermopack Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U28992RJ1982PTC002414/150.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alwar Thermopack Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hem Kund Products Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15411RJ1982PLC002424/151.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hem Kund Products Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arch Enterprises Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002431/152.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arch Enterprises Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swastika Engineering Works Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U34300RJ1982PTC002444/154.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Swastika Engineering Works Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Premier Cylinders Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U28121RJ1982PTC002446/155.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Premier Cylinders Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahi Ramka Steels Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1982PTC002461/156.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sahi Ramka Steels Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. K. F. Diamond Marbles Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1982PTC002466/157.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. F. Diamond Marbles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Tyres Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U25111RJ1982PTC002471/158.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Tyres Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Richa Chem (India) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002479/159.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Richa Chem (India) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Khajanchi Cement Works Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002483/160.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khajanchi Cement Works Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jwala Cement and Allied Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002489/162.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jwala Cement and Allied Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Maheshwari Plastic Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1982PTC002496/163.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Maheshwari Plastic Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Raj Amber Films Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U92112RJ1982PTC002498/164.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Raj Amber Films Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goyal Oil Flour and Dal Mills Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1982PTC002499/165.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goyal Oil Flour and Dal Mills Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tarai Seedsindia Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51214RJ1982PTC002514/166. Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tarai Seedsindia Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shekhawati Transport Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U60231RJ1982PTC002524/167.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shekhawati Transport Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shringar Trading Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002516/166.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shringar Trading Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fabtec Engineers Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002529/169.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fabtec Engineers Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Meratwal Insulations Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1982PTC002534/170.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Meratwal Insulations Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Modis-Prayers Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U29212RJ1982PTC002548/171.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Modis-Prayers Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sumansilk Mills Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U17116RJ1982PTC002549/172.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sumansilk Mills Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arya Agro Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51214RJ1982PTC002558/173.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arya Agro Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dan Chemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1982PTC002561/174.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dan Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goyals Constructions Investments Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1982PTC002566/175.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goyals Constructions Investments Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hem-Kund Minerals and Chemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1982PTC002570/176.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hem-Kund Minerals and Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Oriental Cylinders Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U28121RJ1982PTC002576/176.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Oriental Cylinders Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marble Mandir Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1982PTC002579/178.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marble Mandir Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Monarch Chems and Allied Products Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1982PTC002590/179.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Monarch Chems and Allied Products Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deetex Processors (India) Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1982PTC002594/180.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dectex Processors (India) Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Western Minerals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1982PTC002598/182.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Western Minerals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anil Ginning and Pressing Factory Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U01405RJ1982PTC002599/182.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anil Ginning and Pressing Factory Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Balwant Food Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15499RJ1982PTC002604/183.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Balwant Food Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hotel Vijay Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1982PTC002612/184.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hotel Vijay

Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rashmi Soaps Chemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24302RJ1983PTC002623/185.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rashmi Soaps Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sharma Metal Machines Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1983PTC002629/186.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sharma Metal Machines Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Friends Trading Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PTC002635/187.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Friends Trading Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alankar Associates Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U31909RJ1983PTC002636/188.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alankar Associates Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sekhawati Marbles Private Limited
Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002647/189.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sekhawati Marbles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madan Sons Private Limited
Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U29308RJ1983PTC002735/190.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Madan Sons Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vimal Milk Products Private Limited
Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15203RJ1983PTC002738/191.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vimal Milk Products Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deepali Distributors Private Limited
Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PTC002754/192.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deepali Distributors Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M M Alloys Private Limited
Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27101RJ1983PTC002780/193.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M M Alloys Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhuram Vanaspati and Soya Products Limited
Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1983PTC002785/194.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Madhuram Vanaspati and Soya Products Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marudhar Refinery and Chemical Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1983PTC002790/195.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marudhar Refinery and Chemical Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R. B. Dairy Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15203RJ1983PTC002794/196.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. B. Dairy Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. K. K. Granites Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14102RJ1983PTC002795/197.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. K. Granites

Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rathi Marble Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002797/199.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rathi Marble Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Motel Amar Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1984PTC003044/200.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Motel Amar Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Trade and Travels Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U63040RJ1984PTC003052/201.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Trade and Travels Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Energy and Communications Services Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U64201RJ1984PTC003090/202.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Energy and

Communications Services Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Monarch Films Combined Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U92111RJ1984PTC003099/203.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Monarch Films Combined Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Central Subscription Agencies Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U22122RJ1984PTC003113/204.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Central Subscription Agencies Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. R. Estates Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1984PTC003130/205.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. R. Estates Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Activated Earths Chemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24119RJ1984PTC003135/206.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan

Activated Earths Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Precambrians (India) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24119RJ1984PTC003137/207.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Precambrians (India) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Vaishnodevi Oil Mills Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1985PTC003186/208.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Vaishnodevi Oil Mills Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Uttam Bharat Cements Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1985PTC003188/209.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Uttam Bharat Cements Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Reliance Polytex Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U28992RJ1985PTC003197/210.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Reliance

Polytex Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Crystal White Cements and Industries Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1985PLC003200/211.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Crystal White Cements and Industries Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kekari Granite and Marbles Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14102RJ1985PTC003223/212.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kekari Granite and Marbles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Enpar Traders Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1985PTC003304/213.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Enpar Traders Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Galaxy Packaging Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U74950RJ1985PTC003311/214.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Galaxy

Packaging Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nekodaji Real Estate and Builders Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1985PTC003318/215.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nekodaji Real Estate and Builders Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasihan Midways and Motels Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1985PTC003319/216.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Midways and Motels Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rashmi Finance and Leasing Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1985PLC003454/218.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rashmi Finance and Leasing Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Optima Springs Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27106RJ1985PTC003472/219.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Optima Springs

Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arcena Pharmaceuticals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1985PTC003489/220.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arcena Pharmaceuticals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kota Cement Udyog Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1986PTC003549/221.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kota Cement Udyog Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. New Shivani Cements Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1986PTC003552/222.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. New Shivani Cements Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chandani Properties Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1986PTC003553/223.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chandani Properties Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Crab Coil Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1986PTC003576/224.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Crab Coil Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Micro Point Institute of Computer Training Private
Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U80302RJ1986PTC003632/225.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Micro Point Institute of Computer Training Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pansy Pharmaceuticals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1986PTC003635/226.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pansy Pharmaceuticals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Navratan Fabrics Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1986PTC003679/227.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Navratan Fabrics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Key Stone Knitting Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U17117RJ1986PTC003707/229.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Key Stone Knitting Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Poddar Suitings Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U18108RJ1986PTC003807/229.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Poddar Suitings Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pincan Tea Products Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15491RJ1986PTC003818/230.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pincan Tea Products Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pink City Containers Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U28129RJ1987PTC003843/231.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pink City Containers Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreeram Synthetics Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1987PTC003851/232.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shreeram Synthetics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marudhar Rubbers Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U25191RJ1987PTC003852/233.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marudhar Rubbers Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Soft Ware Consultants India Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U74140RJ1987PTC003870/234.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Soft Ware Consultants India Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganpati Electro Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51395RJ1987PTC003875/235.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ganpati Electro Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Neelanchal Traders Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1987PTC004130/240.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neelanchal Traders Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bikanor Construction and Holdings Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1987PTC003954/237.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bikanor Construction and Holdings Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajdhani Blades Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U28112RJ1987PTC003970/238.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajdhani Blades Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kasliwal Minerals Processors Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1987PTC004018/239.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kasliwal Minerals Processors Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambaji Plastics Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1987PTC004130/240.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ambaji Plastics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kuber Synthetics Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1987PTC004158/241.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kuber Synthetics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M. Misch Matel Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27101RJ1988PTC004455/242.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. Misch Matel Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhilwara Food Products Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15499RJ1988PTC004600/243.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhilwara Food Products Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Viswakarma Electrode Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U29292RJ1988PTC004603/244.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Viswakarma Electrode Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sharma P. Way Engineers Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U45203RJ1988PTC004609/245.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sharma P. Way Engineers Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Himalaya Synthetics Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1988PTC004618/246.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Himalaya Synthetics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marmo Machine Tools Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U28939RJ1988PTC004635/247.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marmo Machine Tools Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shalimar Minerals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1988PTC004660/248.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shalimar Minerals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aravali Aero Rope Travels Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U92412RJ1988PTC004679/249.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aravali Aero Rope Travels Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. C. V. Roller Flour Mills Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15311RJ1988PTC004681/250.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. C. V. Roller Flour Mills Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Star Oil Processors Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1988PTC004695/251.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Star Oil Processors Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Maharaja Bottling Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U74999RJ1988PTC004708/252.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Maharaja Bottling Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Agarwal Grinding Mills Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15311RJ1988PTC004727/253.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Agarwal Grinding Mills Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Delta Auto Manf. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U34300RJ1989PTC004771/254.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Delta Auto Manf. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goenka Marbles Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1989PTC004792/255.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goenka Marbles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shekhawati Estate Development Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U70109RJ1989PTC004793/256.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shekhawati Estate Development Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Siddarth Agro and Poultry Farm Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U01222RJ1989PTC004822/257.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Siddarth Agro and Poultry Farm Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ajmer Cold Retreads Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U25114RJ1989PTC004831/258.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ajmer Cold Retreads Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deco Build Systems Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U36101RJ1989PTC004832/259.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deco Build Systems Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fixwell Electronics and Industries Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U31909RJ1989PLC004837/260.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fixwell Electronics and Industries Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Calcutta Farms Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U01409RJ1989PTC004840/261.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Calcutta Farms Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Vrikshalaya Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U01111RJ1989PTC004848/263.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Vrikshalaya Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fairyland Electronics Toy Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U36741RJ1989PTC004851/264.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fairyland Electronics Toy Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Siddhi Marbles Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1989PTC004861/265.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Siddhi Marbles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Intex Aseptic Packaging Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U74950RJ1989PTC004870/266.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Intex Aseptic Packaging Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Paramount Advertising (Rajasthan) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U74300RJ1989PTC004886/267.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paramount Advertising (Rajasthan) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Goverdhan Sangemarmar Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1989PTC004887/268.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Goverdhan Sangemarmar Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Suviga Marbles Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1989PTC004916/270.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Suviga Marbles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. K. R. Spinners Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U17114RJ1989PTC004920/271.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. R. Spinners Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alfa Electricals Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1989PTC004923/272.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alfa Electricals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Govind Synthetic Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1989PTC004925/273.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Govind Synthetic Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fascinating Stones Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1989PTC004951/274.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fancinating Stones Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Supereps (India) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U60221RJ1989PTC004953/275.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Supereps (India) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rock Cast (India) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U27310RJ1989PTC004955/276.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rock Cast (India) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Real Marketing Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U51224RJ1989PTC004963/277.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Real marketing Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sidihesh Land and Finance Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1989PLC004965/278.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sidihesh Land and Finance Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramganjmandi Mining and Exports Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1989PTC004972/279.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ramganjmandi Mining and Exports Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Eden Agro Mills Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U15312RJ1989PTC005008/280.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Eden Agro Mills Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Crittal Window and Structural Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1989PTC005024/281.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Crittal Window and Structural Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lacment Polysters (India) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24303RJ1989PTC005025/282.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lacment Polysters (India) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhupal Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1958PTC001050/283.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhupal Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aravali Chemical Laboratories Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1979PTC001960/284.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aravali Chemical Laboratories Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Cresols Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U74999RJ1980PLC002146/285.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Cresols Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Domoplast (India) Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U25201RJ1982PTC002449/286.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Domoplast (India) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bahubali Marbles Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1987PTC003907/287.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bahubali Marbles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Lodge Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U55102RJ1989PTC005004/288.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Lodge Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. N. M. Farms Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U70109RJ1989PTC005131/289.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. N. M. Farms Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Asha Cements Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1990PTC005382/290.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asha Cements Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Plasters Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U26952RJ1991PTC006047/291.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Plasters Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Laproscopics Surgerils (USSL) Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U85195RJ1992PLC006669/292.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Laproscopics Surgerils (USSL) Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Satnam Marketing Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U17118RJ1996PTC011656/293.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Satnam Marketing Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Suncity Computer Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U72100RJ1995PTC011225/294.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Suncity Computer Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. My PC Informatics Private Limited

Jaipur-302006, the 1st January 2008

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2001PTC017093/295.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. My PC Informatics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Amrut Sheele Private Limited

Jaipur-302006, the 15th Jan 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002860/228.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amrut sheele Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fatehpuria Chemicals Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1978PLC001809/281.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fatehpuria Chemicals Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R. M. Marbles Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002804/282.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. M. Marbles Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Navrang Spinners Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U17112RJ1983PTC002806/283.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Navrang Spinners Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. V. G. Mohnot and Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U31200RJ1983PTC002810/284.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. V. G. Mohnot and Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. New Lucky Marble Granite Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14102RJ1983PTC002811/285.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. New Lucky Marble Granite Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhilwara Mineral and Chemical Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1983PTC002844/286.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhilwara Mineral and Chemical Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. C. M. Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U92111RJ1983PTC002852/287.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. C. M. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Ganpati Cement Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1984PTC002867/289.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Ganpati Cement Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Cigma Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U26993RJ1984PTC002889/290.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cigma Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Friends Lime Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14107RJ1984PTC002906/291.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Friends Lime Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Periodicals Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U22122RJ1984PLC002913/292.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Periodicals Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shyam G. Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U36911RJ1984PLC002921/293.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shyam G. Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marudhar Cement Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1984PTC002930/294.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marudhar Cement Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gesawat Tiles (India) Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1984PTC002952/295.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gesawat Tiles (India) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Polyset Silk and Synthetic Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U17116RJ1984PTC002986/296.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Polyset Silk and Synthetic Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ajenta Chemicals (India) Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U24211RJ1984PLC002994/297.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ajenta Chemicals (India) Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Monrch Marble Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1984PTC003010/290.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Monrch Marble Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Uttam Foods Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U15497RJ1984PTC003017/299.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Utam Foods Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Manglam Agencies Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1984PTC003018/300.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manglam Agencies Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahaveer Processors Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U17114RJ1984PTC003045/301.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahaveer Processors Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Lime Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PTC003264/302.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Lime Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rawat Marbles Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PTC003270/303.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rawat Marbles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Glaze Stones Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PTC003287/304.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Glaze Stones Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Material Movement Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1985PTC003494/305.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Material Movement Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamal Stone Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PTC003499/306.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kamal Stone Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kelwa Marbles Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1986PTC003518/307.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kelwa Marles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rakshak (India) Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1986PTC003678/308.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rakshak (India) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Apex Marbles Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1986PTC003680/309.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Apex Marbles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Harsa Synthetic Industry Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1986PLC003696/310.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Harsa Synthetic Industry Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Keshava Oil and Food Processors Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1987PTC003879/311.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Keshava Oil and Food Processors Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Gujrat Off Shore Engineers and Ship Builders Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1987PTC004077/312.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gujrat Off Shore Engineers and Ship Builders Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hi-Tech Forge Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U27101RJ1987PLC004096/313.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hi-Tech Forge Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Radhey Fabrics Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1987PTC004099/314.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Radhey Fabrics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fixopan Polymers Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U25201RJ1987PTC004118/315.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fixopan Polymers Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pankh Processors Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U17115RJ1987PTC004125/316.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pankh Processors Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vita Protina Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1987PTC004139/317.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vita Protina Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanti Silk Mills Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U17116RJ1987PTC004147/318.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kanti Silk Mills Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Shree Metal Works Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U2899RJ1987PTC004121/314.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jai Shree

Metal Works Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Preeti Synthetics Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1987PTC004163/320.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Preeti Synthetics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Noble Cotspin Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U17111RJ1987PTC004193/321.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Noble Cotspin Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Granites Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14102RJ1987PLC004215/322.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasthan Granites Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ruby Chem (Ajmer) Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14107RJ1987PTC004234/323.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ruby Chem

(Ajmer) Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shakti Tubes Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U27101RJ1987PTC004235/324.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shakti Tubes Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhanush Advertising Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U74300RJ1987PTC004238/325.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dhanush Advertising Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rudrakh Hatcheries Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U01211RJ1988PTC004241/326.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rudrakh Hatcheries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Bangur Synthetics Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1988PTC004257/327.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Bangur

Synthetics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mehta Plywood Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U20211RJ1988PTC004261/328.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mehta Plywood Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ghoomar Tyres Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U25112RJ1988PTC004269/329.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ghoomar Tyres Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pearl Foods Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U15499RJ1988PTC004287/330.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pearl Foods Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gem Mining Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1988PTC004302/331.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gem Mining

Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Diamond Gums Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U24139RJ1988PTC004323/332.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Diamond Gums Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aravali Beej Vinimay Co. Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U01122RJ1988PTC004340/333.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aravali Beej Vinimay Co. Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Crisp Bakeries Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U15412RJ1988PTC004359/334.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Crisp Bakeries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shrinathji Oil Refinery Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1988PTC004411/335.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shrinathji Oil

Refinery Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gayatri Oil Products Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1988PTC004412/336.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gayatri Oil Products Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M. Marble and Granite Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14102RJ1988PTC004433/337.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. Marble and Granite Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gitanjali Synthetics Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1988PTC004437/338.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gitanjali Synthetics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Gaurav Synthetics Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1988PTC004448/339.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Gaurav

Synthetics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Neelkanth Marbles Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1988PTC004465/340.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neelkanth Marbles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ksheer Sagar Hotel Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1988PTC004467/341.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ksheer Sagar Hotel Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Snapshot Photo Lab Company Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U74940RJ1988PTC004468/342.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Snapshot Photo Lab Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mansukh Starch Products Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U15321RJ1988PTC004487/343.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mansukh

Starch Products Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gopal Silk Mills Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U17116RJ1988PTC004501/344.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gopal Silk Mills Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajputana XSM Services Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U74920RJ1988PTC004514/345.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajputana XSM Services Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. H. P. Marbles and Granites Tiles Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1988PTC004515/346.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. H. P. Marbles and Granites Tiles Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pancham Synthetics Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1988PTC004525/347.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pancham

Synthetics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahesh Rubber Industries Private Limited

Jaipur-302006, the 15th January 2008

No. ROC/JPR/560/U25191RJ1988PTC004565/348.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahesh Rubber Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tulip Collections Private Limited

Jaipur-302006, the 17th April 2008

No. ROC/JPR/560/13883/476.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Tulip Collections Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Neemarana Sign Matrix Private Limited

Jaipur-302006, the 23rd April 2008

No. ROC/JPR/560/21379/524.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Neemarana Sign Matrix Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Genius Mark-Serve Private Limited

Jaipur-302006, the 19th May 2008

No. ROC/JPR/560/21929/706.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Genius Mark-Serve Private Limited

unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dawood and Dawood Private Limited

Jaipur-302006, the 23rd May 2008

No. ROC/JPR/560/3657/804.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dawood and Dawood Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. CKM Build Tech (India) Private Limited

Ahmedabad, the 14th May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec. 560/2008/00177/2980.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. CKM Build Tech (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pansuria Builders Private Limited

Ahmedabad, the 14th May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec. 560/2008/00004/2983.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Pansuria Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tropex Sales Private Limited

Mumbai-400002, the 29th May 2008

No. 560/16/153.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tropex Sales Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Red Bull Energy Drink Private Limited

Mumbai-400002, the 29th May 2008

No. 560/418/154.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Red Bull Energy Drink Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Amway Detergents Private Limited

Mumbai-400002, the 29th May 2008

No. 560/360/155.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amway Detergents Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act 1956 and of the
following companies :—

Kochi, the 9th May 2008

No. 560(3)/SM/ROC-Ekm/7329.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. Co. No. Name of the Company
No.

1	2	3
1.	7724	M/s. The Kattumpuram Finances Pvt. Ltd.
2.	8595	M/s. Josco Foods Pvt. Ltd.
3.	8618	M/s. Chakara Aqua Farms Pvt. Ltd.

1	2	3
4.	8631	M/s. Kodungalloor Kuries Loans Pvt. Ltd.
5.	8671	M/s. Bhavani Agro Farms Pvt. Ltd.
6.	8717	M/s. More Real Estate and Property Developers Pvt. Ltd.
7.	8719	M/s. Puman Apparels Pvt. Ltd.
8.	8739	M/s. Parco Foods Pvt. Ltd.
9.	8819	M/s. Born Tuf Rubbers Pvt. Ltd.
10.	8864	M/s. Family Physical Fitness Pvt. Ltd.
11.	8917	M/s. Neyyar Marketing Pvt. Ltd.
12.	8944	M/s. Noahs Ark Trade Lines Pvt. Ltd.
13.	8957	M/s. Greeco Constructions Pvt. Ltd.
14.	9025	M/s. Associated Resources Development Company Pvt. Ltd.
15.	9035	M/s. Ferti Sands India Grovers Pvt. Ltd.
16.	9056	M/s. Aroma Hotels and Enterprises Pvt. Ltd.
17.	9059	M/s. Command Properties Pvt. Ltd.
18.	9064	M/s. Sai Resorts Pvt. Ltd.
19.	9066	M/s. Rajat Realtors Pvt. Ltd.
20.	9078	M/s. Billion Exports Pvt. Ltd.
21.	9106	M/s. Far Reach Trade Services Pvt. Ltd.
22.	9165	M/s. Aries Technical Services Pvt. Ltd.
23.	9190	M/s. Dhanwanthari Remedies Pvt. Ltd.
24.	9194	M/s. Lents Lifting and Construction Services Pvt. Ltd.
25.	9208	M/s. Golden Syndicate Pvt. Ltd.
26.	9215	M/s. Kessia builders and Property Developers Pvt. Ltd.
27.	9223	M/s. Arathi builders and Developers Pvt. Ltd.
28.	9235	M/s. Highland Housing and Trade Pvt. Ltd.
29.	9243	M/s. Sabha Autotech Pvt. Ltd.
30.	9277	M/s. Lekshmidhara Builders and Traders Pvt. Ltd.
31.	9293	M/s. Sajmia Construction Company Pvt. Ltd.
32.	9301	M/s. Family Insured Farm Pvt. Ltd.
33.	9315	M/s. Kodungallur Credits and Chits Pvt. Ltd.
34.	9328	M/s. Regalia India Pvt. Ltd.
35.	9246	M/s. Frama Exports Pvt. Ltd.
36.	9279	M/s. Motto Tourist Aids Pvt. Ltd.
37.	9343	M/s. Port Kuries and Loans Pvt. Ltd.
38.	9356	M/s. Chittilappilly Kuries and Loans Pvt. Ltd.
39.	9358	M/s. Infotek Pvt. Ltd.

1	2	3
40.	9365	M/s. D. B. Apparels and Garments India Ltd.
41.	9396	M/s. Sree Vyshnava Constructions Pvt. Ltd.
42.	9406	M/s. Chronosign India Pvt. Ltd.
43.	9420	M/s. South West Tourism Pvt. Ltd.
44.	9421	M/s. Ayodhya Travels Pvt. Ltd.
45.	9450	M/s. Gascar Pvt. Ltd.
46.	9461	M/s. Carlowe Capital Ltd.
47.	9478	M/s. Manchulal Kuries and Loans Pvt. Ltd.
48.	9495	M/s. Spell Communications Pvt. Ltd.
49.	9502	M/s. India Direct Exports Pvt. Ltd.
50.	9529	M/s. Cochin Coatings and Fabrications Pvt. Ltd.
51.	9538	M/s. AL Hidayah Reformers Pvt. Ltd.
52.	9539	M/s. Southern Pipes Pvt. Ltd.
53.	9545	M/s. MC Vin Engineering Pvt. Ltd.
54.	9555	M/s. Prism Systems Pvt. Ltd.
55.	9562	M/s. Chakkacheril Estates Pvt. Ltd.
56.	9568	M/s. Fifa Builders Pvt. Ltd.
57.	9585	M/s. Forma Farms Pvt. Ltd.
58.	9592	M/s. Worldwide Educational Consultants Pvt. Ltd.
59.	9623	M/s. Guest Kuries and Loans Pvt. Ltd.
60.	9629	M/s. World Fair Garments Pvt. Ltd.
61.	9632	M/s. Vishwas Consultancy Services Pvt. Ltd.
62.	9636	M/s. JK Micro Systems Pvt. Ltd.
63.	9646	M/s. MRI Foundation and Hospital Pvt. Ltd.
64.	9681	M/s. Apex Kuries and Loans Pvt. Ltd.
65.	9691	M/s. Fair Plans Pvt. Ltd.
66.	9716	M/s. Arsha Tech Exports Pvt. Ltd.
67.	9740	M/s. S. V. Exports Pvt. Ltd.
68.	9743	M/s. KRS Sea Foods Pvt. Ltd.
69.	9756	M/s. Film League Pvt. Ltd.
70.	9757	M/s. Navarag Associates Pvt. Ltd.
71.	9761	M/s. Rainbow Color Lab Pvt. Ltd.
72.	9778	M/s. Amogha Transport Company Pvt. Ltd.
73.	9828	M/s. Malayil Resorts and Hotels India Pvt. Ltd.
74.	9834	M/s. Queensland Constructions and Properties Pvt. Ltd.

1	2	3
75.	9887	M/s. Middle East Fuel Links Pvt. Ltd.
76.	9890	M/s. Lekshmi Stones Pvt. Ltd.
77.	9891	M/s. Marsh Land Marshallers Pvt. Ltd.
78.	9893	M/s. Highlight India Tours Pvt. Ltd.
79.	9951	M/s. Padma Apartments Pvt. Ltd.
80.	9966	M/s. AMC Freight Carriers Pvt. Ltd.
81.	9993	M/s. Toksel Exports Pvt. Ltd.
82.	9996	M/s. Pallikulam Kuries and Loans Pvt. Ltd.
83.	9976	M/s. India Review Ltd.
84.	9984	M/s. Cochin Plastics Pvt. Ltd.
85.	9999	M/s. Good Earth Agro Enterprises Pvt. Ltd.

K. SREEKUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Kerala

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sri Krishna Benefit Fund Limited

Chennai-600034, the 21st May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec. 560/2008/00617—
Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sri Krishna Benefit Fund Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SURYANARAYANA DHARA
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arun Resorts and Builders Limited

Chennai-600034, the 21st May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec. 560/2008/00588—
Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Arun Resorts and Builders Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SURYANARAYANA DHARA
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies :—

Coimbatore-641005, the 28th May 2008

No. ROC/CBE/560(5)/2008 - Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved.

611	6744	SHEVAROYS EXPORT PRIVATE LIMITED
612	6752	ROCKS INDIA PULVARAIZERS PRIVATE LIMITED
613	6758	LIBRAN FOREX SERVICES PRIVATE LIMITED
614	6760	SAIVALARSELVI TEX PRIVATE LIMITED
615	6768	M R BIOCOMP PRIVATE LIMITED
616	6777	SRI VANGALAMMAN FABRIC PRIVATE LIMITED
617	6781	J K R SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
618	6796	LAALI HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED
619	6822	AJANTHAA PLYWOOD PRIVATE LIMITED
620	6824	SHREE RAGHAA JUTE MILLS PRIVATE LIMITED
621	6825	TASMAN GRANITE EXPORTERS PRIVATE LIMITED
622	6826	UNNISON'S MARKETING PRIVATE LIMITED
623	6828	APPAJIS AGRO-AGRI AND FLORATEC LIMITED
624	6829	APPAJIS RESORTS AND HOTELS LIMITED
625	6853	COTTON PALACE GAARMENTS PRIVATE LIMITED
626	6856	DEEPAM PROCESS PRIVATE LIMITED
627	6861	CITY GOAT FARMS PRIVATE LIMITED
628	6864	DHEERAA COMMERCIAL AND HOME CARE PRIVATE LIMITED
629	6869	SUNCO AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
630	6871	HYGROW FARMS LIMITED
631	6879	COIMBATORE LAMINATES PRIVATE LIMITED
632	6891	SURABVASTRA GARMENTS PRIVATE LIMITED
633	6900	SHRI ARASU EXPORTS PRIVATE LIMITED
634	8224	KOODAL MINERAL WATER PRIVATE LIMITED
635	8235	BAPAL SOFTCERV EXPORTS PRIVATE LIMITED
636	8242	EMPEROR MANPOWERS PRIVATE LIMITED
637	8247	P.T.HOTELS PRIVATE LIMITED
638	8254	DINOSAUR METAL PROFILES PRIVATE LIMITED
639	8269	FANTASIA AMUSEMENT PARK PRIVATE LIMITED
640	8275	MARWAH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
641	8277	BILLBOARD COURIER PRIVATE LIMITED
642	8291	JEN AIRCONDITIONERS PRIVATE LIMITED
643	8296	CRONUS AUTOPARTS PRIVATE LIMITED
644	8317	SRI KANDHAVEL COTTON MILLS PRIVATE LIMITED
645	8335	SHRI SAPTHAGIRI DEPARTMENTAL STORES PRIVATE LIMITED

646	8369	G.G.P. FARMS PRIVATE LIMITED
647	8390	HARVEST PLASTICS PRIVATE LIMITED
648	8403	NEXTDROF (INDIA) TRADING PRIVATE LIMITED
649	8413	PLUMBLINE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
650	8414	AMUTHASURABI PROGRESSIVE SERVICES PRIVATE LIMITED
651	8433	PAN SCAN GRAPHICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
652	8434	ELLORA AGROVET FARMS PRIVATE LIMITED
653	8436	CHANDRAPOORNA AGRO FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
654	8462	SHAJBAS ESTATES PRIVATE LIMITED
655	8463	HORNS AND HOOVES HOLIDAYS (INDIA) PRIVATE LIMITED
656	8472	SKT REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
657	8492	SIVAMANI EXPORTS PRIVATE LIMITED
658	8498	M.S.J. FARMS PRIVATE LIMITED
659	9442	ESAN MARKETING PRIVATE LIMITED
660	9448	AKSHAYA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
661	9449	SUNCELL ENERGY AND TECHNOLOGY KOVAI PRIVATE LIMITED
662	9457	SNR MARKETINGS PRIVATE LIMITED
663	9472	SIRPI NETWORK PRIVATE LIMITED
664	9474	VIJAY SIGN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
665	9478	KRISSON TERRY CLOTHE PRIVATE LIMITED
666	9486	JAYALAKSHMI GANESHA TEX PRIVATE LIMITED
667	9503	GVS BIO FUELS PRIVATE LIMITED
668	9513	KAVU ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
669	9514	EZPC TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
670	9523	PRAGMATIC TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
671	9526	MANGALAM SOLUTIONS (COIMBATORE) PRIVATE LIMITED
672	9530	V P K COTTON MILLS PRIVATE LIMITED
673	9531	RUKMATEX INDIA PRIVATE LIMITED
674	9540	WEYEN WET GRINDERS PRIVATE LIMITED
675	9555	SIVARAM COTTON MILLS PRIVATE LIMITED
676	9556	J.B.S COMPUTER TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
677	9558	MAS DIZZY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
678	9572	SRS RUBBER TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
679	9574	BLAZON TECHNOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
680	9580	LSP BAKERY SERVICES PRIVATE LIMITED
681	9582	SHRI POORNIMA IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
682	9583	G S TEA TRADERS PRIVATE LIMITED
683	9591	ATHREYA INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
684	9597	SEJONG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
685	9608	CONGU MARKET LINES PRIVATE LIMITED
686	9610	AMMAN COMPUTER SATTUR PRIVATE LIMITED
687	9611	RAJU INFOTECH PRIVATE LIMITED
688	9615	SHINE NET INFO TECH TAMILNADU PRIVATE LIMITED
689	9621	DREAM FX MULTIMEDIA CHENNAI PRIVATE LIMITED
690	9624	DRS COMPUTER DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED
691	9625	ILEX EXPORT INDIA PRIVATE LIMITED
692	9634	NILGIRIES AYURVEDIC HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
693	9635	SISMAPS MARKETING PRIVATE LIMITED

694	9642	KOVAIGARDENS MULTILEVEL MARKETING PRIVATE LIMITED
695	9643	SILVERSTREEK BUSINESS SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
696	9646	SREE GOKULA VISHNU DAIRY DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
697	9650	PITS INFOTECH PRIVATE LIMITED
698	9654	MANCHESTER INFOTECH PRIVATE LIMITED
699	9657	SOAMI FOREIGN SERVICE AND VENDORS INDIA PRIVATE LIMITED
700	9658	OSHAKA EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
701	9660	EDUCAMP TECHNOLOGIES AND SOFTWARE SOLUTION INDIA PRIVATE LIMITED
702	9665	ERODE TEXTILE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
703	9667	SARVA SHRADDHA BUSINESS SOLUTIONS INDIA LIMITED
704	9668	LOGU BUILDERS PRIVATE LIMITED
705	9670	UNI MAG COVAI MEDITRADE PRIVATE LIMITED
706	9689	K S BIO POWER PRIVATE LIMITED
707	9694	AANOOR FARMS PRIVATE LIMITED
708	9696	HITECH UNIVERSAL INDIA PRIVATE LIMITED

P. RAJAGOPALAN
Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies :—

Bangalore, the 27th May 2008

No. ROCB/TA/560(3)/2008—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the above Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company Number	Name of the Company
01	24474	KUNDODHARI CHITS PRIVATE LIMITED
02	24353	FIGLEAVES CLOTHING PRIVATE LIMITED
03	24320	SRI GURU PROPERTIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
04	24319	FRONTLINE AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
05	24239	SIMPLE SILICON PRIVATE LIMITED
06	24261	MATHIAS LICENSE PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
07	24260	MATHIAS MARKETING AND DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED
08	24258	INTELLIE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
09	24224	GPSIJ FARM LIMITED
10	24186	EAGLE ISLAND HI-TECH DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED
11	24185	WHIZKIDS INDIA PRIVATE LIMITED
12	24030	SRI SAI VISHAL FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED
13	24016	REMAC CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
14	24387	GOLDEN TEAM DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED
15	24727	VIGEL BATLIBOI PRIVATE LIMITED
16	24440	ISPAT TRANSPORT CO. PRIVATE LIMITED

17	28746	ROYAL OFFICE EQUIPMENTS AND FURNITURE PRIVATE LIMITED
18	28029	JASMINE NETWORKS PRIVATE LIMITED
19	24840	PERFECT ALLOY COMPONENTS EXPORTS PRIVATE LIMITED
20	27388	POWER JUNCTION DOT COM PRIVATE LIMITED
21	27027	SISLOGIC INFOTECH PRIVATE LIMITED
22	27733	EPSILON SECURITIES PRIVATE LIMITED
23	24998	JSL TRADE CONNECTION PRIVATE LIMITED
24	28514	BENTEL TECH SYSTEMS LIMITED
25	28645	ROYAL FISHERIES PRIVATE LIMITED
26	27007	e-DENN NETWORKS LIMITED
27	25304	S.V.FASHIONS PRIVATE LIMITED
28	25165	INFOPRISM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
29	26361	METRO INFOTECH LIMITED
30	9831	KRISH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
31	26043	QUADRA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
32	24960	IIQ INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
33	24946	NAROTHAM SECURITIES PRIVATE LIMITED
34	25063	WESTOWN (INDIA) PRIVATE LIMITED
35	24606	SILENT ENGINEERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
36	24619	SINKLARE APPAREL PRIVATE LIMITED
37	25740	BITSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
38	26692	POWERAGE INFOTECH PRIVATE LIMITED
39	24862	NOVEL BIOTECH PRIVATE LIMITED
40	24657	SHRISHAIL NANDI FINANCE PRIVATE LIMITED
41	24785	HARDALOY HEAT ENGINEERING PRIVATE LIMITED
42	9027	CREATIVE LEATHER FASHIONS PRIVATE LIMITED
43	9536	VENUS FASHIONS PRIVATE LIMITED
44	9859	LONESTAR AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED

C. V. SANJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies :—

Bangalore, the 29th May 2008

No. ROCB/560(3)/TA/JK/AMS/2008—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the above Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Com. NO.	Name of the Company
1	4734	TRANS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2	3551	HORIZON STEEL PRIVATE LIMITED
3	7860	RAM GRANITES PRIVATE LIMITED
4	9357	PFL ELECTRIC COMPANY LIMITED
5	3553	METAROL PRIVATE LIMITED

A. M. SRIDHARAN
Dy. Registrar of Companies
Karnataka